

BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office & Works:
20, K.M. Mathura Road, P.O.Box 328
P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA
Tel.: +91 (129) 4288888, E-mail: info@bglindia.com
Corporate Identity Number: L29130HR1971PLC034365

BGL/SEC/NSE/3/AUGUST 2021-2022

BGL/SEC/BSE/2/AUGUST 2021-2022

August 30, 2021

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C-1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400051

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai – 400001

SYMBOL: BHARATGEAR

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Notice of 49th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith certified true copy of the Notice published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) – Delhi Edition and "Jansatta" (Hindi) – Delhi Edition on 28th August, 2021 and 29th August, 2021 respectively in relation to 49th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 22nd September, 2021.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bharat Gears Limited

Prashant Khattry

Head (Legal) and Company Secretary

Encl: As above



Mumbai Office: 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA Tel.: +91(22) 2283 2370, Fax:+91-(22) 2282 1465, Email: info@bharatgears.com Mumbra Works: Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA

Tel.: +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651

www.bharatgears.com



MEGHMANI FINECHEM LIMITED CIN: U24100GJ2007PLC051717 REG. OFF: CH-1, CH-2, GIDC Industrial Estate, Dahej, Tal. Vagra, Bharuch, Gujarat-392130 COR. OFF: Meghmani House, B.h. Safal Profitaire, Nr.Prahladnagar Garden, Prahladnagar.

NOTICE OF 14" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Annual General meeting:

NOTICE is hereby given that the "14" Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") of the Members

Maghman Finechem Limited (the "Company") will be held on Thursday, September 23, 2021 at 12,00 noon through Vid

Conference of Other Audio Visual Means ("OAVM") only, to transact the business as set out in the Notice of Annual Gene

Meeting adated 20" May, 2021 of the AGM.

Conference / Larger House / Larger Larger / Larg

Remote e-voting in complainers with Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements (Regulations, 2015, the Company is providing to 1st Members the facility of render-6-bring before / during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through

he detailed instructions for remote e-Voting are given at point 17(B)(I) of the Notice of the 14" AGM. Members are re ote the following:

1.	The remote e-Voting facility	would be available during the following period:	
_			7

Commencement of remote e-Voting	Monday, 20 th September, 2021 at 09:00 a.m.
Conclusion of remote e-Voting	Wednesday, 22 rd September, 2021 at 05:00 p.m.
EVSN	210825051
TO 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	

ZISB2051
The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter conclusion of AGM and Members will not allowed to vote electronically beyond the said date and time.

If the voting rights of the Members shall be in proportion to heir share of the paid-up equity share capital of the Compan on Thursday, September 16, 2021 (cut-off date). The facility of remote e-Voting system shall also be made avoiding the Members and make the Marchae starting the Meeting and have not already cather their dole by remote e-Voting system shall also be made avoiding the Members and make the Authority of the Members and the Members attending the Members, who have not already cather their dole by remote e-Voting size bade to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Reports whose their register of the Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of romote e-Voting person e-Voting person e-Voting person e-Voting person e-Voting the e-Voting of the Members are as the size of the person e-Voting person

The Michael Khandwale, Partner of C.N.K. Khandwale and Associates, Chartered. Accountants, has been appointed a the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before cluting the AGM in a fair and transparent manner. Members facing any technical issue in login can contact:

Helpdesk details evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 or 1800 224 430

ecurities with CDSL helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542/40. Members are requested to Register their email ID with their respective Depository Participant

Book Closure:

poork_upourus;
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, 2015, the Registe
of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 17, 2021 tr
Thursday, September 23, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 14" AGM. SEEK INFORMATION/CLARIFICATIONS WITH RESPECT TO ANNUAL REPORT:

As the AGM is being conducted through VC / OAVM, members desiring any information relating to the Annual Financial Statements of the Company or those who would like to express their views or ask questions during the AGM may parameters or are company or shoes mot would like to express area verso or ask upstones buring the ANM maj register themselves as a speaker by sending an email to the Company at kamlesh metha@meghtemi.com at least 7 days before the AGM, mentioning their name, complete 16 digit demat account no. (DP D and Client ID) 7 folio no., e-mail address and mobile number. Only those requests as received from the members on the aforementioned e-mail address on or before Thursday, September 16, 2021 shall be considered and responded during the AGM

> For, Meghmani Finechem Limited Company Secretary & Compliance Office

Kamlesh Meht

Place : Ahmedabad Date : 27" August, 2021

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]
SALE NOTICE FOR
SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

മ്യാവ കൂലിക്ക് 🧖 ഉസിന് CIRCLE SASTRA CENTRE CIRCLE OFFICE, REEDGANJ, DEOKALI ROAD,

All Closure And Technical Control of The Control of The Control of Technical Assets AVOHYA (FAIZABAD) PHAN. 0.5278-244377 FAX 240559 E-Mail.:cs8189@pnh.co.in Demand Notice u/s 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

All of you the under marketing of the Control of Technical Control of Techn

Amounts and interest thereon: Name & Address of the Borrowers/Guarantors	Description of the Mortgaged property all the part & parcel of the property consisting of	Dt. of Notice	
	Khaura no. 64, Italia irae-0,161 hect. (mortgage- Area-0-022 (219-99-sq.mtr) atVillaMchalla- Hathiyamalae-7. Par-Miraepur Teh-Sadar, Sultanpur- ouned by Shri Shadak Khari sib Sri Ani Sher vide Regd. sale dead no. 5332 d.101, 2013. Bounded byEast-Bag-Ashok Singh & Ors. West-Bhumi Gram Shakha Noth-Chak Mohammad Sabbeer, South- Chak Mohammad Nalim	2	Rs. 25,22,485.3; (As on 20.07,2021 further intt rom 01.07,2021 & other misc charge
Surat Verma R/o Village-Ishakpur.Post- Motiganj District-Sultanpur -228125 Guarantor, Sh. Lifrai Verma SiO Sh.Ram	Khaura No. 908, Area-0.0300 Hect, or 300 sq.mtr or (3228 sq.ft.) situated at VIII- Bassaudi, Pargana-Beraunsa, Sadar, Sultanpur owned by Si Uldray Verma Sio Sif Ram Sural Verma vide Regd. sale deed no 430° dated 2.00 620° TS Bounded by Sian-1 Peri of I lausif Raja, West-Pfot of seller after the House of Meraj Ahmad North-Road Sultanpur to Kadipur South-Pfot of Mod Alam		Rs 19,30,239.50 (As on 27,07,2021 further intt rom 01,07,2021& other misc charge
Borrower- (1) Mr. Raiesh Kumar Sinoh s/o Sri	Plot no. 692 & 693 Total area- 2 Bigha 13 Bishwa 15		Rs 46.24.907.1

ver (1) Mr. Rajeshi Kumar Singhi sko Sul Plat no. 682 & 863 Total area-2 Bigha 13 Bilthesi Singh Rib Will & Posk - Hamjahada, Juhrup di 173 Hamer Lei, 1130 s.g.mir Juhrup di 173 Hamer Lei, 1130 s.g.mir Juhrup di 173 Hamilanda, Jalangha Kumar Singh Rivo Will & Mohalis- Hanjahada, Jalangha Kumar Singh Rivo Will & Hamjahada, Jalangham, Salitangur Juhrup di 1840 paga sale deen on 1072 dt. 198 03.11 servente her East, Kahal Lenker, Sineh. Mills 225132 BO: KNIT Sultangur (D.No.391400 Rs . 17.96 RSR 1

Kharanja Rasta North- Kharanja Rasta, Soum-nemod Oranir

Pish-1158tha, Area-0.2535 Hext. of 1930 sept.

Pish-1158tha, Area-0.2535 Hext. of 1930 sept.

Pish-1158tha, Area-0.2535 Hext. of 1930 sept.

Ram Pishath Pishor Pishappor, Kharinih, PispanaChanda, Tehsib- Lamhhaa, Sulfangur owned by 58

Bhagwaddeen vide Regdl, Sale No.453719¹ D.

D.C.2.1.1991. Bounds Syr. East. Land of Viray pratag singh, West. Road kadipur to chanda Komitand of Vendor South: Chalara Dewind Om Pishash & Other

Pishash & Other

Strip, on 8 as.

Strip, on 8 as.

Strip, on 8 as.

Strip, on 8 as.

Strip, on 8 as. (As on 23.07.21 further intt rom 01.05.2021 & Besthokan, Sulanyu, S Rs .13,10,427.90 As on 30.06.2021 further intt rom 01.05.2021 &

Pakash & Other

Gata No. 99 admessuring area—6839 sp.ft. at
Suzapur, Pargane- Chanda Tarisi Lembrua Dist
Sultanjur owned by Sir Ram Lauf Dixed Sib Sir
Shaywaii Prasad Regd. Mortgage deed
no. 1942/2018 Bounded by -Eart-Gata No.59 Sagit
Nir Ram Lauf & Oix West-Peliko Stadik North
Rest Land of Albad. Gata 99, South- House of
Gardin Sir Ram-Rest Amelia Gordon's S-Rami Richards

Pet no. 228M. Amed 2009h Incl. 19 kt gratt) a

gordon's S-Rami Richards

Francis Richards

Gordon's S-Rami Richards

Francis Richards

Francis Richards

Francis Richards

Francis Richards

Gordon's S-Rami Richards

Gordon's S-As on 26.07.2021 further intt rom 01.07.2021 &

enhaper, Corona puer of Rom Gogal de 22 Statel Nager, l'experience puer l'American Gogal de 22 Statel Nager, l'activité de 22 Statel de 22 St Rs 11.57.430.21 further intt rom . 01.05.2021 &

Tylised (1) To contect the original inducement abundance of the period o

Date-27.08.2021, Place Ayodhya

For All Advertisement Booking THE STATE OF Call: 0120-6651214

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgagedicharged to the Secured Creditor, the constructivelyhysical (whichever applicable) prossession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor, with be sold on "As is where is". As is what is", and "Whatever there" is on 15.09 2021 for recovery of below mentioned due to the Secured Credit form respective Borrower's, Surrelyhies, (For detailed terms and conditions of the sale, plases erfer to the link provided in Secured Creditor, whether is, www.canarabark.in)

	William Control of Con	Due Amount	- CONTRACT CONTRACT		EMD	
		Due Amount				Branch Name Address/Contact
1.	Borreweits - 1. Mis Spager Traders, Prop. Surt Kurnar, Prot No. 3, Pschrisdan, Behrich Greyes Market, Arbeckeit Posci, Charactella, 2. Mis Cool Brize Electrical Appliances, Prop. Shri Karilli Prased, H.No. 71(G), Newbo 35, New Paperul a Pres. Kinkiwan, Charactella 3. Shri Karilli Prased, Shri Magan Devi Wio Karill Prased, Bohr H. No. 7, 4. Shr. Mayan Devi Wio Karill Prased, Shr. Shri Missan, Shr. All A. Shr. Mayan Devi Wio Karill Prased, All Resident of H.No. 7 (Oxid), New No. 53, New Presul a Pras, Mallewan, Ghazabad.	Seven Lakhs Sixty Five Thousand Three Hundred Eighty Nine & Eighty One Paise Only) as on 01/08/2021 is	Land and Building of Residential House bearing Municipal No. 7 (New No. 35), adenessing sea 95x, yands, situated at Albiana, Chazabach, Owned by Mr. Magan Devi Wio Shri Kamil Presad Bounded as under East: Road, West: House of Sri Babu, North: House of Sri Ramij Lal, South: House of Sri Circhei.	Rs. 54,00,000/- (Fifty Four Lakh only)	Rs. 5,40,000/- (Five Lakh Forty Thousand only)	Branch Rakesh Marg Nehru Nagar, Ghaziabad Mob: 9868394422.
2.	Borrewerks - 1, Mis Robit Kiro Traders, Prop. Shr Ramesh Chand, Likhadd PRINA, Skalpura, Ghazidana - 20101 (Littler Product) 1, 25 Ramesh Chand Sio Shri Tigin Ram, Ric H. No. 319, Kallupura, Dishrid Chazidan Littler Pradesh. 3, 35 H Vindo Chand Sio Shri Ramesh Chand, Rio H. No. 319, Kallupura, Dishrid Chazidan Littler Pradesh. 3, 35 H Vindo Chand Sio Shri Ramesh Chand, Rio H. No. 318, Kallupura, Dishrid Chazidan Littler Pradesh. 4, 55 Shreah Chand Sio Shri Den Saran, Rib M-95A, Mahindria Enclave, Dishrid Chazidan Co 2010 (J. Littler Pradesh.)	Rs. 50.43,106.03 (Rupees Fifty Lakhs Forty Three Thousand One Hundred Six & Three Paise Only) as on 01/08/2021 is due along with interest and cost etc.	Land and Building of Residential House bearing Municipal No. 310 (New No. 53), admessuring san's So, paries is, 20 30 pc nin in Nanous No Sidel, Studied at Nobaling Kallipura, Villago, Janearo, Ozoschado Destro Chandrad Strunded as under East Rest part of House No. 310 West House of Mss. Steels, Nerthi-House of Sid Saburan Mr. Poronn & Mr. Jagodsh, South: Gallery Rasia 3 6 wide hereafter vacantized of Mr. Khalle.	Rs, 9,70,000/- (Nine Lakh Seventy Thousand only)	Rs. 97,000/- (Ninety Seven Thousand only)	Branch Rakesh Marg Nehru Nagar, Ghaziabad Mob: 9868394422.
3.	Borrowerks - 1. Mix Robit Esterprises, Prop. Skri Virvad Chand, Unit Ad 579, Qurest Market (Endigune, Charbaded -201001. UP 2. Skr Ramesh Chand Sko Shri Teja Ram, Rio H. No. 319, Kallupura, District Gharabadh Sko Shri Teja Ram, Rio H. No. 319, Kallupura, District Gharabadh Sko Skri Ramesh Chand, Rio H. No. 318, Kallupura, District Gharabadh Sko Ski Ramesh Chand, Rio H. No. 318, Kallupura, District Gharabadh Sko Skr Den Saran, Rio M. 95A, Mahindria Enclave, District Gharabadh 2: 201001. U.P.	Fifty Four Thousand Six Hundred Sixty Eight & Twenty Four Paise Only) as on 01/08/2021 is due along with interest	Land and Building of Residential House bearing Municipal No. 318, adveneuring area 50 spreads, in Kasen 66684, stateated Muhain Kalipuru, Village Jahrene Ohzeitsche Spreads, in Kasen 60484, adveneuring Australia Bustrick Ohzeitsche Statesche Charles of Batte House of Orien Cornet, West: GaliGallery 3 Feet wide, 4 House of Mr. Augstrich House of Sin Ramesh Chard. South: House of Sin Ramesh Chard. South: House of Sin Ramesh Chard.	Rs. 13,00,000/- (Thirteen Lakh only)	Rs. 1,30,000i- (One Lakh Thirty Thousand only)	Branch Rakesh Marg Nehru Nagar, Ghaziabad Mob: 9868394422.
4.	Borroweris: Mis Alshifa Manufacturing and Trading, Office No. 23, Cabin no. 1, 2nd Floor, Piot no. 14, Sector 4, Vaishali, Ghazaibad 201010. Mohdh, Nasini Sio Mohd, Nashir, H.No. E-314, New Seemapuri Jhilmil, East Deith 11095. Mohdh, Nasini Sio Mohd, Nashir, H.No. C-632, New Seemapuri Jhilmil, East Deith 11095.	Lakhs Seventy Eight Thousand Seven Hundred Twelve & Eighty Eight Paise	All that part and parcel of the properly consisting of Office no. 23A, area 22.642 sq. mits on Second Flox, Shiple Aceds, Pitalo 1.4, Second v., Visiahai, Charabad 20101 Owned by Month Nazim Soi Moldon Master Bounded as under East: Remaining Part of Shop no. 23A, West: Shop, North: Other Shop, South: Passage.	Rs. 45,00,000/- (Forty Five Lakh only)	Rs. 4,50,000/- (Four Lakh Fifty Thousand only)	Indirapuram District Ghaziabad, Uttar Pradesh Ph: 8130696643
5.	Borrowerfs:- 1. Mis Rameshwari Organic Farming, Reg. Office: Village Bayana, Post Dasna, District Ghaziabad 201012. Mr. Ramesh Chandra Mishra Slo Late Shir Chintamani Mishra, Rio B- 116, Block E., 1st Floor, Plot no. GH 1/11, Dronagiri Apartment, Vasundhara, Ghaziabad 201012.	Rs. 73,74,370.04 (Rupees Seventy Three Lakhs Seventy Four Thousand Three Hundred Seventy & Four Paise Only) as on 01/08/2021 is due along with interest and cost etc.	All that part and parcel of the property consisting of Flat no. 8-116, covered area 82.13 sq.mins situated at Block E, Pot no. G.H. 1/11, First Floor, Dronagin Apartime, Sector 11, Vasunchara, Chatalbad, UP 201012, Owned by Mr. Ramesh Chandra Mistra Bounded as under: East: Open Space and Road 20 Feet wide, West: E-113, North: Flat No. E-115, South: Flat no. 4-114.	Rs. 65,00,000/- (Sixty Five Lakh only)	Rs. 6,50,000/- (Six Lakh Fifty Thousand only)	Indirapuram District Ghaziabad, Uttar Pradesh Ph: 8130696643
6.	Borroweris- 1. Mr. Ashrey Jayant Slo Late Shri Harish Jayant, KC 8800, Kai Nagar, Chastabad, UP 201002. Sint Hema Jayant Wo Late Shri Harish Jayant, KC 6800, Kavi Nagar, Ghazabad, UP 201002. Shi Sk Ardhi Jayant Do Late Shri Harish Jayant, KC 6800, Kavi Nagar, Ghazabad, UP 201002. Ali K Karishi Jayah Do Late Shri Harish Jayant, KC 6800, Kavi Nagar, Ghazabad, UP 201002. Ali K Karishada Lou Mill, Shri Ashrey Jayant Slo Late Shri Harish Jayant, Widhyapur, Shahiphanpur Road, Near Green City Colony, Hapur Road Modratine.	Twenty Four Lakhs Eighty Eight Thousand Seventy Seven Only) as on 01/08/2021 is due along with interest and cost etc.	All that part and parcel of the property consisting of Factory Land and Building situated at part of Kharan Na 40.88 4.10 K. New Green City Colony, Volyapur, Shahjaharapur Road, Village Auranghaha Gadina, Modrinager, with the Registration Sto blacks Modrinager and District Ghazabad Total Area of Property 2122 25 sp.mt. Bounded as under East Land of Lagreet/Ghazabad Total Area of Property 2122 25 sp.mt. Bounded as under East Land of Lagreet/Ghazabad Total Area of Property 2122 25 sp.mt. Bounded as under East Land of Lagreet/Ghazabad Total Area of Property 2122 25 sp.mt. Bounded as under East Singh as per sale deed.	Rs. 2,10,00,000l- (Two Crore Ten Lakh only)	Rs. 21,00,000/- (Twenty One Lakh only)	Modinagar District Ghaziabad, Uttar Pradesh Ph: 8755907418
7.	Borrower/s:- 1, Sri Manohool Singh S/o Shri Firmmy Singh, H No. 221.	Rs. 13.29.857.17 (Rupees Thirteen	All that part and parcel of Land and Building of Residential House bearing municipal No.	Rs. 21,00,000/-	Rs. 2,10,000/-	Trade Tax Bhawan

"FOR ATTENTION OF THE PUBLIC AT LARGE"

Notice is hereby given that Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bencivide order dated 18.08.2021 (Copy of the order dated 18.08.2021 was uploaded on the website of Hon'ble NCLT on 26.08.2021) issued notice on the application seeking approval of resolution plan and directed the Resolution Professional to issue notice to the

applitural or reasonance present and or person and or pers

In the matter of Associated Lighting System Private
Regn No. IBBII/PP-4/02/IP-N000011261-17
Add: ATS Greens Paradios, Plat No. 2016-17
Pilot No. GH-03, Sector-CHI-04, Creater
Little Pradesh Email Id:- cirp alspi@gmail.com; dev_singh2006@yah

SATURDAY, AUGUST 28, 2021



CMI LIMITED

CIN L74899DL1967PLC018031 ice: PD II, Jhilmil Metro Station, Jhilmil Industrial Area Delhi - 110 095 Ph.: 0129-4876177 ssite: www.cmilimited.in Email: info@cmilimited.in

NOTICE

- In the Notice of 54th AGM and Annual Report for FY2020-21 will also be made available on the Company's weeklise at www.cmilimidation and website of the stock exchange i.e., BSE Limited at www.beindia.com and National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com and National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com i.e. to Company is providing remote e-voiting facility ("remote e-voiting 1.0 all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 54th AGM. Additionally, the Company is providing the acts of voiting through e-voiting system during when the AGM and remote e-voiting-e-voiting is provided in the Notice of 54th AGM. Members stateding the AGM through VGOMM' will be counted for the purpose of redsching the AGM counter of the counter of the propose of redsching the AGM counter of the purpose of redsching the AGM.

For CMI Limited

Date: 27.08.2021 Place: New Delhi

Subodh Kumar Barnwal Company Secretary M No. 21928

BHARAT GEARS LIMITED Regd. Office & Works: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Armar Nagar, Fairidabad-12100

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

ne Annual Ceneral Meeting, Members attending the meeting through VICOAMA shall be counted for the purposes of resoloning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Mannes of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Mannes of Regulation 4 of the Regulations, Net Company is pleased of the Companies (Mannes of Regulation 4 of the Regulations, Net Company is pleased of the Companies of the Companies (Mannes of Regulation 4 of the Regulations, Net Company is pleased of the Companies o

Process for Registration of e-mail ID and Bank Account details:

n case the shareholder's e-mail ID is already registered with the Company/litegistrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting a eing sent on the registered e-mail address.

In case the shareholder has not registered his/her/their e-mail address with the Companyitis RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate receipt of dividend, the following instructions to be followed:

 Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Limite www.linkintime.co.in under Investor Services>Email/Bank detail Registration fill in the details. upload the required documents and submit. In the case of Sh

(a) in the case of Shares shed in Demait mode: The shareholders may please contact the Depository Participant ("DP") a register the e-mail address and bank account dealis in the demat account as p the process Edured and advised by the DP. Further details of the above are available on the website of the Company is www.bharlaguear.com and the Stock Exchange website i.e. www.bseinda.com.a www.nseinda.com.

Dated: August 27, 2021 Place: Faridabad

New Delhi

Prashant Khat Head (Legal) and Company Secreta







ri Wio Satmendra Sclanki, G-39, Rs. 7,79,33137 (Rupees Seven Labra Seetah Kunj, Govindpuram, Dist. Thomas Seventh Nem Trouscand Nine Hundred Seetah Kunj, Govindpuram, Dist. Thomas Plate Third Commercial Shop, bearing No. 3, Ground Floor, without roof rights, area 14,00 Seetah Kunj, Govindpuram, Dist. Thomas Plate Third Seetah Kunj, Govindpuram, Dist. On the Seetah Kunj, Govindpuram, Dist. Seetah Kunj, Govindpur





Authorised Officer, Canara Ban

खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित विस्तृत अधिसूचना बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.com के 'निविदा' अनुसाग में उपलब्ध हैं। सीलबंद आवेदन, प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर, 2021

अपराह 3.00 बजे तक आवेदन शुल्क के साथ रु. 2000/-(अप्रतिदेय) है। विषय में कोई भी शुद्धिपत्र उसी वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी या सभी आवेदनों क

ा पुनने या अस्वीकार करने पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखत

वैश्विक ई-निविदा आमंत्रण सुचना ई-निविदा उत्पाद मात्रा [मीट्रिक तट बोली जमा करने की | अत्पाद | साशा | मा।द्रक | दन माँ | विकास करने के | अंदिस (त्रिक्ट) | अतिक (त्रिक्ट) | | इत्राप्त (त्रिक्ट) | अतिक (त्रिक्ट) | | एनपीके(1232:16) | 50,000 | पश्चिमी तट | से 1230 बजे तक विवरण के लिए, वेबसाइट: www.nationalfertilizers.com या https://etenders.gov eprocure/app देखें. शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल उपरोक्त वेबसाइटॉ MONFL_Kisan f @nationalfertilizers in National Fertilizers Limited

भारत गीयर्स लिमिटेड

ठावींतयः २० कि.मी. मधुरा रोड. पो.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-12100 दुरमाषः +91 (129) 4288888 फैक्सः +91 (129) 428822-23 वेबसाइटः www.bhasbpears.com ईं—मैलः info@bglindia.com सीआईएनः 129730HR1971PICO34385

वार्षिक आम बैठक एवं रीमोट ई—मतदान की जानकारी की सूचन एतद्दारा सुधित किया जाता है कि मारत गीयस लिमिटेड के सदस्यों की अबी वार्षिय आम देवल (एजीएम) बुधाबार, 22 सिताबर, 2021 को सुबह 11:30 बजे वीरिका सम्मेलन (विशेष)अपन ऑडियो-लियुक्त (विश्वपित) के मारत से आयोजित की जागो जिसमें वर्षित व्यवसायों को निम्मादित करने के लिए सूचना पहले ही शैयरवारकों को मेर दी गयी है।

आत्र केळ (फोल)प्ले बुधवाल, 22 विधानक, 2021 को बुधह 11:30 बचे वीडिटो—संस्तन (सीली) उच्च विधान विधान की स्वित्त के सामित की सामित

विषरों का नजाकृत हुनार सार्व र जाजा हो। हुन यदि शेयरहारक ने कंपनी/उसके आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपना ई–मेल प पंजीकृत नहीं किया है या लागांश की प्राप्ति के लिए बैंक खाता जनादेश को अद्यतन न किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए: 1994 ह. भा मानाशावादा प्रनदश का पातना क्या जाना चाहिए. जु कृपा हमारे आरोपी, रिक इन टाइम हुडिया ग्राइटेट शिमिटेड को वेबसाइट व लोगिन करें, www.linkintme.cu.in की इन्सेस्टर सर्विनेध्य-ईमेल/बैंक डिटे-रिकेट्ट्रीमा के तहत कृपाय लोगिन्हन करें – विवरण मरें, आवश्यक दस्तावें। अपनांड करें और सर्वामेंट करें

iaacev दर्ज कर सकत है। उपरोक्त दिवरण कंपनी की वेबसाइट <u>www.bharaigears.com</u> और स्टॉक एक्समेंज वं वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> पर उपलब्ध हैं। कृते **मारत गीयर्स लिमिटे**:

नीलामी सूचना

प्रशान्त खत्री प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव

अन्यतारु कर आर सवामट कर। ij) और मोड में आयोजित रोगरों के मामले में: रोयरवारक डिसॉजिटरी पार्टिसिपेट (श्रीपी) से संपर्क कर सकते हैं अ अपनाई प्रक्रिया और सलाह के अनुसार और्मट खाते में ई—मेल पता और विवरण वर्ज कर सकते हैं।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, 'संदीपनि' नंबर मी-32, संक्टर-62, नोएडा-201301

जनसत्ता संवाददाता देहरादून, २७ अगस्त

मानसून की बारिश उत्तराखंड में कहर बरपा रही है, भागपुन का बारल उदारवाड़ भ करह बरपा एता है, कहां एक और स्पर्येय जगामां सहित ग्रज्य में कतीब 65 श संपर्क मार्ग बंद है और उनका पूरे देश से संपर्क टूटा हुआ है, वहीं दूसरी और शुक्रवाद को भारी बासिए के चलते देहरादुन के डोईवाला बेड़ में सभी पोखरी का पूज भरम्या कर गिर गया, इस दौरान पुज पर चल रहे कहें वाहन भी नदी में जा गिरे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

भारी बारिश से उत्तराखंड में जनजीवन अस्तव्यस्त ने इस मामले की जांच बैठा दी है और पुल निर्माण में कार्यरत कंपनियों के दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के

कायंत्र कंपनियों के दांचा ठकराती और ओधकारियों के विख्ताफ कड़ी कार्मचाई के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में बारिश से उफान पर आई निर्दिगों ने अब नेदानी इलाकों में आपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, इस बाद बारिश से विकराल हुई निर्दियों ने राजधानी देहरादून के कई हिस्सों में तबाड़ी मचाई है, शुक्रवार पुबंह हो माल देवा की तरफ जाने वाली पहक को बरसाती नदी बाहा कर ले गई तो बली दोगहर में ग्रामी पोखरी रिवत प्रशासकार कर नहीं हो हाल कर कर हो हो हो हो है पुल भी भराभरा कर नदी में समा गया।

पंजाब नेशनल बैंक <mark>थि pnb</mark> punjab national b

1. में एकंड दूर पंडे बांस (पर्टरविषय कर्म हाय पार्टनर्स, की हाती दूर सेल., जूनेर कुरंती तथा सीनती आपना) 40032, मीहरला तकन साराम, कुपन्दलार 200001 मीहरला 2. की हाती हुए सीहराम, पुत्र की हाती कमरदीन निवासी 152, तकन साराम, कर्षण कोट, कुपन्दलार-200001
3. की मोमप्त पुत्रीय कुपते, पुत्र की हाती हुए मीहरम्म, निवासी 152, तकन साराम, करण करें, कुपन्दलार-200001
4. की मोमप्त पुत्रीय कुपते, पुत्र की हाती हुए मीहम्मप्त, निवासी 152, तकन साराम, करण करें, कुपन्दलार-200001
5. कीमप्ते आपना, पप्त्री की हाती हुए मीहम्मप्त, निवासी 152, तकन साराम, करण करें, कुपन्दलार-200001
5. कीमप्ते आपना, पप्त्रीय की हाती हुए मीहम्मप्त, निवासी 152, तकन साराम, करण करें, कुपन्दलार-200001
5. कीमप्ते आपना, पुत्री के हाती हुए मीहम्मप्त, निवासी 152, तकन साराम, करण करें, कुपन्दलार-200001
5. कीमप्ताम करणें पुत्र की हाती हुए मीहम्मप्त, निवासी 152, तकन साराम, करण करें, कुपन्दलार-200001
5. कीमप्ताम के प्रत्या की सारामुं कुपत्र के प्रत्या के प्रत्या करणें करण

क प्रते आकृष्ण की जाती है। अध्यस सम्पन्ति का विवरण मेंदि ककार प्रदार प्रमा के निकर, टाउन सुनन्दलार में पिश्त सार्जीत् मोहम्पत के नाम में जनसाविक सह आवारीय पारन, तीन मीमल, पुरिच मा (१८%) को मी.

मोह. रुकान सराय, जाटर पम्प के निकट, टाउन बुलन्दशहर में स्थित मोहम्मद जकरिया के नाम में आवासीय भवन (मकान) नं. 182/सी, एरिया माप 102.90

ं मी. इरी: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः श्री बाबू का मकान, उत्तरः श्री खलील का मकान, दक्षिणः श्री हानी नूर मोहम्मद का मकान

परिशिष्ट - IV- ए (नियम 8 (6) का परंतुक देखें) अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत् बिक्री सूचना

-						
1	एतदृद्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित वि 13(4) के तहत प्रान्त किया जा चुका है, प्रतिभृत क्रेडिटर की निम्मलिखित कर्जदारों नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामत:। www.can	की तरफ बकाया राशि तथा ब्याज तथा लाग	धक रखीं गई / प्रमारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित / मीतिक (जो भी लागू है)' कब्जा प्र ातों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 15–09–2021 को 'जैसी है जहां है', जैसी है जो है' त इन्देखें।	तिभूत क्रेडिटर के प्रार्त था 'जो भी है वहां है'	कृत अधिकारी द्वारा आधार पर वेची जाए	अधिनियम की धारा गी। बिक्री के विस्तृत
38. EF	रुम उद्यारकर्ता∕जमानती का नाम io.	देय रात्रि	सम्पत्ति का विवरण	आरवित मृत्य	ईएनडी	शाखा का नाम/पता
	5 जागरवर्ता— 1 की जागर ट्रेकर्स थी। यह मुन्त स्वृत्तर व्यार करों के 3, मदान, इसेन सार्थिक में और अनेकल रहे, मारियामां 1 2 कि जुत किम हालेडिट्रमल करनावरण थी। के बी जागी प्रसाद मारियामां 2 कि जुत किम हालेडिट्रमल करनावरण थी। के बी जागी प्रसाद मारियामां 2 (के बी जागी प्रसाद, सीमीयो मगन देवी पान सार्वीवाद, गाणियामां 2 (के बी जागी प्रसाद, सीमीयो मगन देवी पान का जीवाद प्रसाद मित्राली मारियामां या प्रसाद मारियामां या प्रसाद मारियामां या प्रसाद मित्राली मारियामां या प्रसाद मित्राली मारियामां या प्रसाद मित्राली कराव पान के प्रसाद मारियामां या प्रस्था मारियामां या प्रसाद मारियामां या प्	पैंसठ हजार तीन सौ नवासी और इक्यासी पैसे मात्र) दिनांक 01.08.2021 तक बकाया + आगे का ब्याज एवं प्रमार	भूमि और बेमारत आवातीम सका मुश्मिरत थेठ / एवं ५० 36) रिवाली मान 100 रुकेशर प्रवेदर्भ भीतराम महिलाह गारियाबार, माशियाबार, माशियाबार क्षेत्रीय मान में शिर्ण भी किए माश्रीय पोटरदी पूर्व चेत्र, परिवास भी मानू का पर चलार भी पानतीतत्त्व का पर, पत्तिम भी जिल्लाची का घर।	रूपये 54,00,000 (घडव्यन लाख मात्र)	रूपये 5,40,000 (पांच लाख चालिस हजार मात्र)	शाखा राकेश मार्ग नेहरू नगर, गाजियाबाद मो0.— 9888394422
	उपारक्ति— 1 कि. जीलि लिंग ट्रेंबर्स ग्रीफ और रोक्स चन्द्र, यूनिट पता चर्चीट मंत्र-4, कच्युपुर, गाजियावान — 201001, 00001 2 जी ऐसे पन्द पुत्र औ तेजा चन्द्र निवासी— मकान मंत्र, 316, कच्युप्र, जिला गाजियावाय, 00000 (5). जी विनीद चन्द्र पुत्र औ एसेच चन्द्र, निवासी— मकान 5.03, कच्युपुर, जिला गाजियावाय, 0000 4. जी चुरेश चन्द्र पुत्र औ देशी शरण, निवासी एम-60ए, मिहिन्सा इन्यलेद, जिला गाजियावाय — 201001, 00001	तेतालिस हजार एक सौ छः और तीन पैसे मात्र) दिनांक 01.08.2021 तक बकाया	भूमि और बेम्परत, आवासीय सकार मुश्तिपित नंत्र, 3:19 (मृत्य 5:55), शिलाकी बाध ठठ क्लेक्टर वार्यल आईर्ड, 2:05 एक्सर मीटर, खसरा मेंत्र, 8:05ए मीटरला कल्लुहुन्त, गाँव जटवाड़, गाजियाबाद चीहरती सुर्थ मध्यान मेंत्र, 3:10 का माग, प्रतिकर कीमीत शीला का वार, प्रतार मेंत्र असुरात का घर की यून और की जगरीश, प्रतिकः गैलरी/पारण 3:0 किट चीड़ा एसके बाद औ पदारों की खाती मूनि।	रूपये 9,70,000 (नौ लाख सत्तर हजार मात्र)	रूपये 97,000 (सतानवे हजार मात्र)	शाखा राकेश मार्ग नेहरू नगर, गाजियाबाद मोठ.— 9868394422
	3 जाराव्यां - ६ के. शीवि कंप्यवार्थिक, के. भी विषयं भयः, मृतिर प्रचान- कर, कृति काराव्य कल्लुपर, वालिक्षान्त - 20100; 1000 2. शी रहेता भयः पुत्र शी तेवा याः, मिशाची मागान कं. 318, कल्लुपर, तिला पारित्यायाः, 5001 3. भी विशेष भयः पुत्र शी रोणा मानः, मिशाची मागान कं. 318, कल्लुपर, तिला पारित्यायाः, 5001 4. भी पुत्रेण भयः पुत्र भी रोणी स्थान निवासी एम-60 ए. महिन्सा इन्यवेद, रिक्ता मारित्यायाः, 5001	चउव्यन हजार छः सौ अइसठ और चौबीस पैसे मात्र) दिनांक 01.08.2021 तक बकाया + आगे का ब्याज एवं प्रमार	अहं भी भी हंगात, अप्याचीय कारत हिमीच्या है। 16, मित्राची भाग 50 स्पेरार वार्टित, वार्ट्स म्म, 666 भी, में बिल्क क्लाहुम, तांत्र प्रत्यात्र, मार्टिवादा, मित्राची होता, मित्राचीच होता, म	रूपये 13,00,000 (तेरह लाख मात्र)	रूपये 1,30,000 (एक लाख तीस हजार मात्र)	शाखा राकेश मार्ग नेहरू नगर, गाजियाबाद मो0.— 9868394422
	प्रधारवर्ता — वै अदिलक्षा वैगुकैक्वरिंग एण्ड ट्रेबिंग, अधिका वं 23. कैंविन थे 1, डिटीय तक, प्लॉट थे 14, तिकट थे. वितासी, गाणियावाय 201010. 201010. के इस्ति १९००. के प्रधार १९००. के प्रधार १९००. के प्रधार १९००.	हजार सात सौ बारह और अठासी पैसे मात्र) दिनांक 01,08,2021 तक बकाया +	सम्पत्ति ऑफिस मंक 20ए, रिस्पकी माथ 22,942 रख्येरम मीटर, हितीय वाद, हिरिय पेरकेब, स्वॉट मंक्ष: १, संकटर ४, देवाली, मारियाबाद 201010, मारिक्त कीठ, माजिन युव मीठ मारिक्र सीकटती. पुढी डुकान मीठ, 20ए का रिमेनिंग माम, परियम: डुकार, उत्तरट अप्य डुकार, टेकिन, देविन, देविन	रूपये 45,00,000 (पैतालिस लाख मात्र)	रूपये 4,50,000 (चार लाख पचास हजार मात्र)	इंदिरापुरम जिला गाजियाबाद यू०पी०, फोन— 8130696643
1	पोस्ट ढासना, जिला गाजियाबाद 201012.	चौहत्तर हजार तीन सौ सत्तर और चार पैसे मात्र) दिनांक 01.08.2021 तक	मालिक श्री रमेश चन्द्र मिश्रा चीहददी: पुर्व: खला भाग और 20 फिट चौडा रोड, पश्चिम: प्लैट नं०	रूपये 65,00,000 (पैंसठ लाख मात्र)	रूपये 6,50,000 (छ: लाख पथास हजार मात्र)	इंदिरापुरम जिला गाजियाबाद यू०पी०, फोन— 8130696643
	शर्वीट फो. करन्तुपुर, गाविषयाया — 20101, 30001) व. वी. पोल पर पुत्र के तीज वाप, निवासी— करान मंत्र 3.1 करननुपर, दिवास गाविष्याया , 20001 (3). वी विशास पर पुत्र की रनेश घन्द्र, निवासी— मान्य नं 3.1 करननुपर, दिवास गाविष्याया , 20001 (3). वी विशास पर पुत्र की रनेश घन्द्र, निवासी— मान्य 3.1 करनुपुर, दिवास गाविष्याया , 2010 (3). विशास पर पुत्र की वी विशास पर पुत्र की वी विशास पर पुत्र की विशास पर, विशासी परमान की 3.1 करनुपुर, विशास गाविष्याया 20001 (3). विशास पर पुत्र की विशास पर, विशासी परमान की 3.1 के तथा विशास पर पुत्र की विशास पर, विशासी परमान की 3.1 के तथा विशास पर पुत्र की विशास पर, विशास पर, विशास पर पुत्र की विशास पर,	वेतादिल कणार एक तो क और रोग पैसे मां श्री मां श्री मां श्री होंगे होंगे हांगे हांगे होंगे हैंगे हैंगे होंगे हैंगे होंगे होंगे होंगे हैंगे हैंगे होंगे हैंगे	पार्वका बाईई, 2050 रुपेशर मीटर, खरात में, 005एमें मीटरला करपुर, गांव पटवाइ, गारियावार सीटर्टिय, मिसान में, 305 पण, पीस्मान मीट्रीय तो सा प्राय प्रकार मीट्रीय ती सा अपर उस्तर में वाद प्रकार में किए मीट्रीय प्रकार के प्रकार में किए मीट्रीय प्रकार के प्रकार	(भी लाव नावार हजार मात्र) रूपये 13,00,00 (सेन्ह्र लाख मात्र) रूपये 45,00,00 (पिवासिना नावा मात्र)	स्वतानः मा रूपये ! (एक तीस मा रूपये ! (चार ला हजार	वे हजार (त्र) (1,30,000 लाख हजार (त्र) (4,50,000 (स्व पचास र मात्र)

ष्ठभारकर्ता - 1, गीरम कुमारी परिन सतमेन्द्र तोरांकी, पता - जो 39, क्षम्य अभारी प्राप्त आवित्यपुर, जिला माजियाचार । साम जिला के प्राप्त आवित्यपुर, जिला माजियाचार । साम जिला के प्राप्त आवित्यपुर, जिला माजियाचार । साम जिला के प्राप्त आवित्यपुर, जिला मोजियाचार । साम जिला के प्राप्त आवित्यपुर, जिला के प्राप्त अवस्था के प्राप्त के

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

आस्ति वसूली शाखा, 26/28-डी, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, (कार्यस्थल : एम-३५, प्रथम तल, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-११०००१)

ईमेलः arbdelhi@unionbankofindia.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत्

प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8/9 के साथ पठित वित्तीय यों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय नोटिस

कर्जदार / गारंटर से वसूल की जाने वाली राशि (रु.) एसए लंबित / बैंक को ज्ञात ऋणमार यदि कोई हो आरक्षित मूल्य (रु.) कर्जदार और गारंटर का नीलामी की जाने वाली नाम एवं पता अचल सम्पत्ति का विवरण बोली वृद्धि राशि क्ष्मार्टमेंट द्वितीय तल पलैट नं. एफ-5, Kl-163 ब्लॉक- J. कवि नगर, गाजियाबा में स्थित, क्षेत्रफल 91942 वर्ग फीट सुपर क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल 771.56 वर कीट, यह सम्पत्ति श्री मस्त कुमार नकला और श्रीमती ज्योति नकला के नाम पर है। ₹ 3,07,68,552.74 दिनांक 17.0 2015 तक और भविष्य का व्याप लागत, खर्में एवं अन्य प्रमार सांकेतिक कब्जा रु. 37.00 लाख बैंक को जात नही 3 70 =

ई-नीलामी शुरू होने पर या उससे पहले ईएमडी राशि जमा की जा सकती है

दिल्ली पब्लिक स्कूल, मेरठ रोड़ गाजियाबाद फोन-

जिम्म नियम https://www.msteecommere.com/auctionhomelibap/index.jsp देखें के दिए, कृतमा दिए गए दिंक https://www.mionhankefindia.co.inlenglish/Tendet/VewAllAuction.aspx को देखें। अधिकारी : पूर्वी पान गत्ती, में . 4880000002, 7915902000 (अधिकारी : की अरूण कृमार, मां . 48815489731 (जिसकारी : की अरूण कृमार, मां . 48815489731 (जिसकारी : की विशास पोधीरी, मों - 8997189144 तेता जानकारी हेतु की दिवाकर गोधीरी, जम शादाा प्रमुख, मो. मं. 9971781144 सं सम्पर्क कर नाकते हैं।

पूर्व-योग्यता-सह-निविदा सूचना

्रे वैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India



ह । कर्जदार / रॉ. को तथा जनसावारण को इस सम्पत्ति के संबंध में संध्यकार गर्डी करने हेतु सावधान किया जाता है सथा सम्पत्ति के संबं नेपानल वैंक की मिन्नवर्णित राशि राधा कस पर व्याज का भगतान करने के बाद ही किया जा सकता है ।

		अवल सम्पत्तियों का वर्णन :			
क्र. सं.		बंधक रखी गई सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना की विधि	कब्ता सूचना वस्पा करने की रिथि	मांग सूचना की तिथ्य तक बकाया राशि
1.	गैसर्स जल पूर एंड सन्स, श्री हाजी पूर मोहम्मद, श्री मोहम्मद जुबेर कुरेशी, श्री मोहम्मद जायद कुरेशी, श्रीमती आसमा, श्री मोहम्मद जकारिया	वाणिजिक सह आवागीय विश्वेत तीन गोंवर, गरिया वेतन १६०३ वर्ग गोटर, ही हरजी पूर गोहम्मद के गान्। मोहत्त्वा ककन सराव, निकट बाटर वर्ग, टावन कुलंबकहर। बीहद्द विभागनुबार: पुद्र हाजी इवसेंक की सम्बत्ति, परियम: श्री यागीन का महत्	31.05.2021	25.08.2021	स. 94,75,276.70/- (रूपए बीरानवे लाख यवहत्तर हजार दो सी छहत्तर तथा पैसे सत्तर मात्र) + 01-04-2021 से व्याज
2.	मैसर्स जल पूर एँड चन्ता, श्री हाजी पूर मोहम्मद, श्री मोहम्मद जुबैर कुरेशी, श्री मोहम्मद जायद कुरेशी, श्रीमती आसमा, श्री मोहम्मद जकारिया	अवातीत विविश्तं (भकान) नंबर 182 / र्वी, परिणा बोजप्पत 19230 वर्ग मीटर, भी मोहम्मद व्यवारिया के नाम, मोहस्ता व्यक्त सरस्य, निकट वाटर प्रण्य, टाउन बुसंदराहर। व्यक्तिस्य निकम्मनुसारः पुरः प्रत्या, परिकमः से बायू का मकान, व्यवस्य निक्रम का मकान, व्यवस्था नी व्यक्तीन का मकान	31.05.2021	25.08.2021	सः 94,75,276.70/- (कपए चौरानने लाख पचहत्तर हजार दो सौ महत्तर तथा पैसे सत्तर गात्र) + 01-04-2021 से स्थाज
3.	श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री पूनम चंद शर्मा, श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी श्री सतीश कुमार शर्मा	आवासीय मकान, परिमाप क्षेत्रपाल 58,09 वर्ग मीटर, श्री शतीता कृपार शर्मा के नाम, मोडल्ला शिकारपुर कम्पाएंड, युलदशहर। चौडपदी निम्मानसार:	29.05	26.08	क. 25,70,763.60/- (कपए पच्चीस लाख सत्तर इजार सात सी विरेसठ तथा पैसे साठ गात्र्) +

पूरव : धुव अग्रवाल का प्लॉट, पश्चिम : अनिल सर्मा का प्लॉट, पश्चिम : सिल सर्मा का प्लॉट, पश्चिम : सिल सर्मा का प्लॉट, पश्चिम : सिल स्वाम : सिल सिल स्वाम : सिल सिल स्वाम : सिल सिल स्वाम : सिल सिल स्वाम : सिल स्व

26.08.2021 .2021

प्राधिकृत अधिकारी,

www.readwhere.com

Regd. Office & Works: 20 K.M. Mathura Road P.O. Amar Nagar Fordabed 40400

Ph: +91 (129) 4288888 **Fax**: +91 (129) 4288822-23

Website: www.bharatgears.com, E-mail: info@bglindia.com

For **BHARAT GEARS LIMITED**

Head (Legal) and Company Secretary

(All amounts in INR Lakhs unless otherwise stated)

Year Ended on

31.03.2021

(Audited)

4.135.89

(659.13)

(659.13)

(659.13)

(656.84)

1,572.59

1,573.59

22.57

35,514.28

(6,591.30)

(6,591.30)

0.27

(0.24)

1.00

Prashant Khattry

Year Ended on

31.03.2020

(Audited)

6.352.82

(831.28)

(831.28)

(831.28)

(874.03)

2,229.43

2,230.43

14.41

32,137.23

(8,312.80)

(8,312.80)

March 31, 2020

(2.085.89)

514.99

229.88

57.13

452.62

(831.26)

1.755.20

1,611.88

(439.50)

3.103.46

Deepak Kapoor

DIN: 00462283

DMI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED

Registered Office: Express Building, 3rd Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002,

Tel: +91 11 41204444, Fax: +91 11 41204000, E-mail: dmi@dmihousingfinance.in, U65923DL2011PTC216373

Director

175.88

March 31, 2020 | March 31, 2019

2.270.19

1,348.26

(2.085.89)

229.88

467.00

For and on behalf of the Board of Directors

By Speed Post

Mr. Zaki Ahmed S/o Mr. Babar Ali, Plot No -MM- 110 Flat No-GF- 4 DLF Ankur Vihar Loni Ghaziabad Opp- Banshal Stor

Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102 India, Also At: Flat No. S-1 Second Floor, Plot No.A-61, Khasra No.38, SLF Ved Vihar, Tehsil

Loni Ghaziabad Uttar Pradesh 201010 India. Also, At: 700/24, Gali No. 27, Vijay Park, Maujpur, North East Delhi, Delhi -110053.

Mrs. Nafisha Begam W/o Mr. Zaki Ahmed, Plot No -MM- 110 Flat No-GF- 4 DLF Ankur Vihar Loni Ghaziabad Opp- Banshal Stor

Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102 India, Also At: Flat No. S-1 Second Floor, Plot No. A-61, Khasra No.38, SLF Ved Vihar, Tehsil

Loni Ghaziabad Uttar Pradesh 201010 India, Also, At: 700/24, Gali No. 27, Vijay Park, Maujpur, North East Delhi, Delhi -110053.

The Undersigned being the Authorized Officer of M/s DMI Housing Finance Private Limited (hereinafter referred to as "DMI HFC").

Company incorporated under the Companies Act, 1956 having its office at Express Building, Third Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafai

Marg, New Delhi-110002. (hereinafter referred to as "DMI HFC"), registered under the Securitization and Reconstruction of Financial

That the "DMI HFC" is a Company incorporated under the Companies Act, 1956, carrying on the business of providing various

That you the addressees approached the "DMI HFC" for availing a Loan for a sum of Rs. 24,24,173/- (Rupees Twenty Four Lac

Twenty Four Thousand One Hundred Seventy Three Only) Your request for grant of Loan was considered by the "DMI HFC" vide a

Loan Agreement No. HFC0003753455 / Loan Application No. GG1125680 (The Said Loan Agreement) dated 31-Aug-2018, on the

terms and conditions contained therein. Both of you, as the Borrowers, signed the said Loan Agreement dated 31-Aug-2018, as

token of acceptance of the Terms and conditions therein. Subsequent to the acceptance of the terms and conditions of the said

Loan Agreement, you have other documents in respect of the said Loan facility granted by HFC. You have availed the said loan

FLAT NO. S-1 SECOND FLOOR, PLOT NO. A-61 KHASRA NO.38. SLF VED VIHAR, TEHSIL- LONI GHAZIABAD UTTAR PRADESH

That you the addresses have accepted all the terms and conditions of the facility agreements detailed thereunder, with such lenders

That you have , thus, created a Security interested in respect of the Scheduled Property in favour of the "DMI HFC" and the Schedule

That based on your request, the "DMI HFC" disbursed Rs. 24,24,173/- (Rupees Twenty Four Lakh Twenty Four Thousand One

That You, availed the above said Loan with an undertaking for repayment of the said loan through Equated Monthly Installments

That you defaulted in payment of the Equated Monthly Installment (EMIs) payable by you to the "DMI HFC". Despite of repeated

requests and follow-ups by the "DMI HFC", you failed and neglected to pay the EMI's as stipulated in the Loan Agreement executed

by you. You, the Borrowers have failed in maintaining the Financial Discipline/obligations and defaulted in timely repayment of the

That pursuant to the above and other defaults on your part, there are events of default as defined in Article 7 of the Loan Agreement. In

consonance with the provisions of the Loan Agreement No. HFC0003753455 / Loan Application No. GG1125680 pursuant to

occurrence of the events of default, your loan was recalled buy the "DMI HFC" vide Demand cum Recall Notice dated 24-May-2021

calling upon you all to repay the entire loan advanced to you. Under the said Demand cum Recall Notice dated 24-May-2021 you were

called upon to repay the total outstanding amount of Rs. 26,69,464/- (Rupees Twenty Six Lakh Sixty Nine Thousand Four Hundred

Sixty Four Only) which includes accrued interest, other dues and charges till 31-Mar-2021 along with further charges and interest till

the date of actual payment. The said Demand cum Recall notice dated 24-May-2021 was duly served upon you. That you have

That further, since the amount payable by you under the Loan Agreement has been outstanding for more than 90 days, your Loan

deliberately neglected to repay the said dues/outstanding liabilities as stated in the demand cum recall notice dated 24-May-2021

That your outstanding liabilities due and owing to the "DMI HFC" as on 30-Jun-2021 are in the sum of Rs. 27,59,083/-(Rupees

Twenty Seven Lakh Fifty Nine Thousand Eighty Three Only) which includes accured interest, other dues and charges till 30-Jun-

2021. Please note that you are also liable to pay further interest at the contractual rate together with substitute interest, incidental

expenses, costs and charges including legal Fees etc. from 30-Jun-2021 till the date of repayment of the entire outstanding liability.

Therefore, the "DMI HFC" hereby calls upon you jointly and/or severally under Section 13(2) of the Securitization and

Please note that if you fail, jointly and/or severally, to repay ter the "DMI HFC" the aforesaid sum of Rs. 27,59,083/-(Rupees

Twenty Seven Lakh Fifty Nine Thousand Eighty Three Only) including the interest thereon and other charges payable by you, with

further interest, substitute interest, imidental expenses, costs and charges from 30-Jun-2021 till the date of repayment, within (60)

sixty days from the date of receipt off this notice, the "DMI HFC" will be constrained to exercise all or any of the rights provided

under Section 13(4) and under other applicable provisions of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002, which includes the right to take possession and sale of the Scheduled Property, at your

cost and risk. As per the provision of the aforesaid Act, you are also informed that in case if the proceeds from the liquidation of the

secured assets are not adequate to cover the dues of "DMI HFC", we shall proceed against you for recovery of the balance dues by

Schedule Property, without obtaining prior written consent of the "DMI HFC" The non-compliance with the above provision as

You are also put on notice that in terms of Section 13(13) of the said Act, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise the

14. This notice is issued without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights and remedies which the "DMI

15. All Correspondence pertaining to this matter must be addressed to the Authorised Officer, DMI Finance Private Limited. Express

SCHEDULE (Description Of The Said Property)

Property Address:- FLAT NO. S-1 SECOND FLOOR, PLOT NO.A-61 KHASRA NO.38, SLF VED VIHAR, TEHSIL- LONI GHAZIABAD

contained in Section 13(13) of SARFAESI Act is an Offence Punishable under Section 29 of the SARFAESI Act.

HFC" may have including further demands for the sums found and payable by you to the "DMI HFC".

Building, 3rd Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (and further amendments thereof) by issuing

this notice, to dicharge in full your liabilities stated above to the "DMI HFC" within a period of (60) sixty days from the date of this

Account has been classified by the "DMI HFC" as "Non-Performing Asset" on 15-Feb-2021.

inter alia, agreeing to pay the principal amount of the aforesaid loans, interests and all other monies payable thereunder

(EMIs) as per the terms and conditions contained in the said Loan agreement and other documents executed by you.

2,229.44

(0.09)

0.20

1.00

CIN: L29130HR1971PLC034365

CORRIGENDUM

In the Notice published on 28" August, 2021 for Annual General Meeting

and e-voting information, the date of completion of dispatch of Notice of

GULSHAN HOMES AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

Reg. Office:-121 Hargovind Enclave Delhi-110092

CIN:-U70101DL2010PTC211975

Extract of Audited Financial Results for the Year Ended March 31, 2021

1 The above financial results were reviewed and approved by the Board of Directors at their

2 The audit of Financial Results for the year ended March 31, 2021 has been carried out by

3 The Company has adopted Indian Accounting Standards ("IND-AS") effective April 1

2020 (transition date being April 1, 2019) and accordingly, the financial results for the year

ended March 31, 2021 and March 31,2020 have been prepared in accordance with the

recognition and measurement principles laid down in the IND-AS prescribed under section

133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the

Reconciliation of Profit between IND-AS and previous GAAP for the year ended March 31,

5 Reconciliation of Total equity between IND-AS and previous GAAP for the year ended

6 During the year ended March 31, 2021. Company has issued and allotted 1100 Non

convertible debentures having face value of Rs. 10,00,000/- each and the same were

Disclosure as per regulation 52(4) of the SEBI (Listing obligation & disclosures requirement)

The Company has been incorporated to engage in the business of Real Estate. Based on

the information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM) for the purpose of

resource allocation and assessment of performance, there are no reportable segments in

accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108-'Operating Segment

Previous period amounts have been regrouped/ reclassified in compliance with IndAS to

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereby issue to you the following notice:-

facility against the security of the following property which was mortgaged by Deposit of Title deeds:

Reporting', notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

other accounting principles generally accepted in India.

49th AGM be read as 28th August, 2021 in place of 27th August, 2021.

FE SUNDAY

Place: Faridabad

Dated: 28.08.2021

Particulars

Total Income from Operations

extraordinary items

extraordinary items

Net Worth

1. Basic:

2. Diluted

Outstanding Debt

Debt/Equity Ratio

(of Rs.10 Each)

and extraordinary items

Equity paid up share capital

Debt Service Coverage Ratio*

capitalised during the period.

the statutory auditors.

2020 is as follows:

Impact on other expenses

Impact on employee benefits

· Tax impact on above adjustments

Profit/(loss) as per previous GAAP

- Impact on recognition of revenue as per IndAS 115

Total comprehensive income/(loss) as per IND AS

March 31, 2020 and March 31, 2019 is as follows:

Total Equity (Shareholder's Funds) as per IND AS

Credit Rating and Change in Credit Rating (If any):

regulation, 2015 for the year ended March 31, 2021 are as under:

CARE Ratings: CARE BB; Stable (Double B); (Outlook:Stable)

make them comparable with those of current period/year.

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

financial services including granting Home Loans.

Property has become the Secured asset of the "DMI_HFC"

outstanding amounts under the facilities described hereunder.

Hundred Seventy Three Only).

initiating appropriate legal action.

UTTAR PRADESH 201010 INDIA.

financiales epas.in

Total equity (Shareholder's Funds) as per

listed on the Bombay Stock Exchange.

Opening retained earning adjustments

Recognition of Contract cost assets

Tax impact on above adjustments

Impact of Ind AS 115 adoption

Particulars

previous GAAP

Place: Delhi

Date: 27.08.2021

Interest Service Coverage Ratio*

meeting held on 27.08.2021

Net Profit/(Loss) before tax, exceptional and

Net Profit/(Loss) after tax, exceptional and

Reserves excluding Revaluation Reserves

Earning Per Share (after extraordinary items)

This ratio does not include borrowing cost

Total Comprehensive Income after tax

Net Profit/(Loss) before tax but after exceptional

Registered Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 Email: investor@vinayakpolycon.com, Website: www.vinayakpolycon.com Phone: 0141-2377007, Fax: 0141-2378830

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

Remote E-Voting:

19th September, 2021 at 5:00 P.M.

The 12th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Vinayak Polycon International Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Monday, the 20th September, 2021 at 04:00 p.m. to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM.

The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2021 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices to the shareholders is 28th August, 2021. The same is also available on the Company's website www.vinayakpolycon.com. Members seeking to inspect documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM can send an email to investor@vinayakpolycon.com. In case you have not registered your

email ID with the Company/ Depository, please follow instructions as given in the Notice.

Members holding shares either in Physical or in Dematerialized form, as on the cut-off date of 13th September, 2021, may cast their vote electronically on the businesses specified in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the Members are informed that:

The Businesses as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by The remote e-voting shall commence on 16th September, 2021 at 09:00 A.M. and ends on

 Cut-off date for voting is 13th September, 2021. iv) Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 13th September,

person is already registered with the NSDL for remote e-voting then the existing user ID & password can be used for casting vote. v) Members may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting. Once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

2021, may also obtain the login ID and password by sending a request at

evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the

c) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again; d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be

b) The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM;

entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM; vi) E-voting Notice is available on the Company's website; www.vinavakpolycon.com and at the E-voting agency's website: https://www.evoting.nsdl.com/ vii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download

section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Shikha Natani, Compliance Officer at the investor@vinayakpolycon.com or at 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 or call at 91-141-2377007. C) Book Closure:

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 14th September, 2021 to Monday, 20th September, 2021 (both days inclusive).

For Vinayak Polycon International Limited

Shikha Natani (Company Secretary and Compliance Officer) Date: 28.08.2021 Membership No.: 45901

POSSESSION NOTICE

Branch Office: 6TH Floor, Synergy Tower, 13/1, Sector-62, Noida-201301(U.P.) Registered Office: - 11th floor, The Ruby, Plot No-29, Ruby Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400028

POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Reliance Home Finance Ltd. under the Securitization Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued Demand

The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-

Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days

The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Reliance Home Finance Ltd.

Description of Property	Date of Demand Notices	Date of Possession	Amount in Demand Notice (Rs.)
		26th August - 2021	Rs.1,40,27,095/-(Rupees One Crore Forty Lakhs Twenty Seven Thousand Ninety Five only) as on 23rd Jun-2021 for loan account number RHHLDEL000055215
	2021	26th August - 2021	Rs. 30,10,903.76 (Rupees Thirty Lakhs Ten Thousand Nine Hundred Three and Seventy Six Only) as on 7th - Jun-2021 for loan account number RHAHDEL000041711
All the piece and parcel of property bearing Flat No 23a, Sf-02, 2nd Floor, Rear Side (without Roof Rights), Ganesh Puri, Pasonda, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201005	2021	27th August - 2021	Rs.11,87,269/- (Rupees Eleven Lakhs Eighty Seven Thousand Two Hundred and Sixty Nine Only) as on 7th - Jun-2021 for loan account number RHAHNOI000074860
	All the piece and parcel of property Bearing Plot No. 1379 (admeasuring 520 Sq Yards), Sector-37, Urban Estate, Faridabad, Haryana-121002 All the piece and parcel of property bearing Flat No. 1601, 16th Floor, Tower A8, Habitech Panchtatva, Plot No. GH 8A, Tech Zone 4, Greater Noida, Noida, Uttar Pradesh-201310 All the piece and parcel of property bearing Flat No 23a, Sf-02, 2nd Floor, Rear Side (without Roof Rights), Ganesh Puri, Pasonda,	All the piece and parcel of property Bearing Plot No. 1379 (admeasuring 520 Sq Yards), Sector-37, Urban Estate, Faridabad, Haryana-121002 All the piece and parcel of property bearing Flat No. 1601, 16th Floor, Tower A8, Habitech Panchtatva, Plot No. GH 8A, Tech Zone 4, Greater Noida, Noida, Uttar Pradesh-201310 All the piece and parcel of property bearing Flat No 23a, Sf-02, 2nd Floor, Rear Side (without Roof Rights), Ganesh Puri, Pasonda,	All the piece and parcel of property (admeasuring 520 Sq Yards), Sector-37, Urban Estate, Faridabad, Haryana-121002 All the piece and parcel of property bearing Flat No. 1601, 16th Floor, Tower A8, Habitech Panchtatva, Plot No. GH 8A, Tech Zone 4, Greater Noida, Noida, Uttar Pradesh-201310 All the piece and parcel of property bearing Flat No 23a, Sf-02, 2nd Floor, Rear Side (without Roof Rights), Ganesh Puri, Pasonda,

Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Place: Noida/Ghazibad/Faridabad (Authorized Officer) Date:28-Aug-21 Reliance Home Finance Limited

Place: Noida

Date: 27" August, 2021

CORRIGENDUM It is clarified that advertisement

published in the esteemed newspaper of same newspapers dated 16th July 2021 through URC 2 for M/s Chayan Enterprises LLP, the address should be read as "The CRC, IICA, Plot No 6,7 & 8 Sector 5 IMT Manesar Gurgaon instead of Regional Director North Region, B/2 Wing 2nd Floor CGO Complex New Delhi For Chayan Enterprises LLP

Atul Singh Suchi Singh DPIN-08321164 DPIN-08321165

ROLLATAINERS LIMITED (CIN: L21014HR1968PLC004844) Read, Office: Plot No. 73-74, Phase- III. Industrial Area, Dharuhera, District-Rewar Rewari-123106 Phone: 01274-243326, 242220

E-mail: cs.rollatainers@gmail.com Website: www.rollatainers.in POSTPONEMENT OF BOARD MEETING Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to some unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was scheduled to be held on Friday, 27th August 2021, is now postponed and re-scheduled to be held on Wednesday, 01st September 2021 inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter & year ended March 31st, 2021. The said Notice may be accessed on the Company's website and the website of BSE www.bseindia.com and NSE i.e.

> For Rollatainers Limited Pyush Gupta

> > (Director)

DIN: 03392865

www.nseindia.com

Date: 27.08.2021

Place: New Delhi

The Karur Vysya Bank Ltd., (KVB) Karur Vysya Bank DIVISIONAL OFFICE, No.6, 3rd Floor, Smart way to bank Opp: Metro Pillar No: 80, Pusa Road, Karolbagh, New Delhi - 110 005

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 06.04.2021 calling upon the borrowers (1) M/S Luthra Sales Private Limited, Regd.Office at 11/83-84,3rd Floor. Geeta Colony, Delhi-110031 Also may be at: 11 Shivpuri, Patpar Ganj Road, Delhi 110051 (2) Mr. Jagieet Singh Luthra, S/o Late Satyendra Singh Luthra, R/O F-22, Sector-39, Block-C, Noida - 201 303 (3) Mrs. Kuldeep Kaur, w/o Late Satyendra Singh Luthra R/O F-22, Sector-39, Block-C, Noida - 201 303 to repay the amount mentioned in the notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice.

and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) or section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 26th day of August of the year 2021.

the property and any dealings with the property will be subject to the charge of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED for an amount of Rs. 3,66,01,448.03 (Rupees Three Crores Sixty Six Lakhs One Thousand Four Hundred Forty Eight and Paisa Three only)

the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

BRIEF DESCRIPTION OF SECURED ASSETS

Entire residential built up at F-22, Block F, Sector 39, Noida 201303 admeasuring approximately 300 sq. meters approximately and bounded on East: Plot No: F-21

Place: Delhi Date: 26.08.2021

Chief Manager & Authorized Officer THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

(KVB) Karur Vysya Bank DIVISIONAL OFFICE, No.6, 3rd Floor, Swart way to bank Opp: Metro Pillar No: 80, Pusa Road, Karolbagh, New Delhi - 110 005

The Karur Vysya Bank Ltd.,

Possession Notice (For Immovable Property) Issued under Rule 8(1)] of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 06.04.2021 calling upon the borrowers (1) M/S Raj Leather Enterprises Pvt Ltd Regd. Office at , Shop No.19, CSC, DDA Market, Pocket - E. Mayur Vihar Phase - II, New Delhi - 110 091 Also may be at Shop No: 102, Plot No A-7, LSC, Pocket B, Purvanchal Plaza, Mayur Vihar, Phase-II, Delhi-110091 (2) Mr. Nagesh Dhar Misra alias Mr. Nagesh Dhar Mishra, s/o Mr. Tirath Raj Misra alias Mr. Tirath Raj Mishra, A-166, Patel Nagar-II, Ghaziabad-201001, Uttar Pradesh (3) Mrs. Shalini Mishra W/o Mr. Nagesh Dhar Misra alias Mr. Nagesh Dhar Mishra, A-5, Flat No. 603, Olive Country, Sector-5, Vasundhara, Ghaziabad-201012, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 85,09,017.51 (Rupees Eighty Five Lakhs Nine Thousands Seventeen Rupees and Paisa Fifty One only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 26th day of August of the year 2021. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with

the property and any dealings with the property will be subject to the charge of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED for an amount of Rs. 85,09,017.51 (Rupees Eighty Five Lakhs Nine Thousands Seventeen Rupees and Paisa Fifty One only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

BRIEF DESCRIPTION OF SECURED ASSETS Residential Flat bearing No: J-1505, Type 6A, Plot No: GH-12A, J Block, Jaipuria

Sunrise Green, Ahinsa Khand, Indirapuram, Ghaziabad – 201 012 and bounded on North: 100 mtr wide road South: 120 mtr wide road

East : 150 mtr wide road West: 80 mtr wide road Place: Delhi

Date: 26.08.2021

Chief Manager & Authorized Officer

Place: Delhi Date: 29/08/2021 THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

(Incorporation) Rules, 2014 and The **Companies (Incorporation) Second** Amendment Rules, 2017] Before the Regional Director Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, New In the matter of The Companies Act, 2013,

Form No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of the Companies

Section 13(4) of the said Act read with The Companies (Incorporation) Rules, 2014 and The Companies (Incorporation) Second Amendment Rules 2017 In the matter of Sahil Realtors Private Limited. a Company registered under the Companies Act,

1956 having Registered Office at F-8, OkhlaPetitioner

held on 31st May 2021 to enable the Company to change its Registered office from "State of NCT of Delhi" to "State of Harvana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodh Road, New Delhi-110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant Company at its registered

For and on behalf of Sahil Realtors Private Limited (Sudhir Dhingra Director DIN: 00006048 F-25, Radhey Mohan Drive Bandh Road, Gadaipur, Date: 29th August 2021 Mehrauli Place: New Delhi New Delhi-110030

Noida Dadri Road, Phase II, Gautam Buddha Nagar, Noida-201305 (U.P), inter By Order of the Board of Directors

WHEREAS. THE AUTHORISED OFFICER OF HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED UNDER THE SECURITIZATION AND 2002 ISSUED DEMAND NOTICE TO THE BORROWER/S AS DETAILED HEREUNDER, CALLING UPON THE BORROWER TO REPAY THE NOTICE IS HEREBY GIVEN TO BORROWER/CO-BORROWERS AND THE PUBLIC IN GENERAL THAT THE UNDERSIGNED IN EXERCISE OF POWERS CONFERRED ON IT UNDER SECTION 13(4) OF THE SAID ACT R/W RULE 8 OF THE SAID RULES HAS TAKEN SYMBOLI PARTICULAR AND PUBLIC IN GENERAL ARE HEREBY CAUTIONED NOT TO DEAL WITH THE PROPERTY AND ANY DEALINGS WITH THI

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Place: Jaipur

CLAIMED AMOUNT: DATE OF POSSESSION ARE GIVEN HEREIN BELOW I) NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR; 2) LOAN ACCOUNT NUMBER; 3) LOAN NO. AMOUNT; 4) DETAILS OF SECURITIES; 5) DATE OF DEMAND NOTICE; 6) CLAIMED AMOUNT IN INR; 7) DATE OF

BORROWERS/GUARANTORS, LOAN ACCOUNT NUMBER, LOAN AMOUNT,DETAILS OF SECURITY, DATE OF DEMAND NOTICE

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Vinod Bothra and Vinita Bothra All At G7/16, 2nd Floor , E-Block, Kirshna Nagar Delhi -110051: Loan Account No. 110931: Loan Amount: Rs.2200000/- (Rupees Twenty Two Lakhs Only) 4) Details Of Security: All The Piece and Parcel of Property - PROPERTY NO. E-7/16, SECOND FLOOR, KRISHNA NAGAR DELHI-110051, Property Boundary: North: H. No 15, East: Gali, South: Reaming, West: Gali.: 5). Demand Notice Date: 07.04.2021 6) Amount Claimed: Rs. 14,30,757.90 (Rupees Fourteen Lakhs Thirty Thousand Seven Hundred Fifty Seven and Paise Ninety Only) as of 07-April-21 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.; 7) DATE OF POSSESSION: 25/08/2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Gulshan katyal and Sweety Katyal Both Are At House no 23/20, Second Floor, East Punjabi Bagh , New Delhi 110026 Also At House No 23, 2nd Floor , Road 23, east Punjabi Bagh, New Delhi 110026.; Loan Account No. 688786; Loan Amount: Rs.4629388/- (Rupees Forty Six Lakhs Twenty Nine Thousand Three Hundred Eighty Eight Only); 4) Details Of Security: ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUSE NO 23, 2ND FLOOR WITH MEZANINNE ROOMAND COMPLETE ROOF RIHTS ABOVE SECOND FLOOR ALONGWTH ONE ROOM BUILT THEREON, ROAD NO 20, CLASS-D, MEASURING 288.46 SQ, YDS., EAST PUNJABI BAGH, NEW DELHI-110026; 5) Demand Notice:31.03.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 57,17,153.72 (Rupees Fifty Seven Lakhs Seventeen Thousand One Hundred Fifty Three and Paise Seventy Two Only) as of 31-Mar-21 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.7) DATE OF POSSESSION: 24/08/2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: SHASHI BALA SINGH And UMESH KUMAR SINGH Both At HOUSE NO-4 ROSHAN PUR DORLI, MEERUT CITY HO-250001; Loan Account No. 1406266; Loan Amount: Rs. 3659169/- (Rupees Thirty Six Lakhs Fifty Nine Thousand One Hundred Sixty Nine Only); 4) Details Of Security: ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY - HOUSE NAGAR NIGAM NO: 04, PLOT NO: 01 PERTAIN TO KHASRA NO: 79M SITUATED. AT REVENUE VILLAGE ROSHAN PUR DORLI, THASIL SARDHANA, MEERUT, UTTAR PRADESH -250001 PROPERTY AREA 4815 SQ FEET.: 5) Demand Notice: 15.04.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 33,41,801.89/- (Rupees Thirty Three Lakhs Forty One Thousand Eight Hundred One and Paise Eighty Nine Only) as of 15th April 2021 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc..7) DATE OF POSSESSION: 24.08.2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: SHANKAR LAL MAHESHWARI, AKASH MAHESHWARI and SHANTA SARDA MAHESHWARI All At H NO. A-18 KH NO 839/1, ENDRA ENCLAVE LONI GHAZIABAD, DELHI-201102.; Loan Account No. 1597999: Loan Amount: Rs.3076154/- (Rupees Thirty Lakhs Seventy Six Thousand One Hundred Fifty Four Only); 4) Details Of Security: ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY - PLOT NO. A-18 A, KH NO 839/1, INDRA ENCLAVE, LONI, GHAZIABAD.-201102, UTTAR PRADESH SALE DEED IN FAVOUR OF SMT. SHANTA MAHESHWARI PROPERTY AREA 142.13 SQ. MTR. PROPERTY BOUNDARIES: NORTH: Plot No. 19, WEST: Gali, SOUTH: Part Of Plot No. 18, EAST: ROAD 5) Demand Notice: 31.03.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 2,757,140.02 (Rupees Twenty Seven Lakhs Fifty Seven Thousand One Hundred Forty and Paise Two Only) as of 31-Mar-21 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc...7) DATE OF POSSESSION: 25/08/2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: VIKAS MAVI, SHRI CHAND MAVI and NISHA MAVI All At HOUSE NO- 6/56 RAJENDER NAGAR SEC-2 GHAZIABAD GHAZIABAD-201001; Loan Account No. 1055517; Loan Amount: Rs.3220154/-(Rupees Thirty Two Lakhs Twenty Thousand One Hundred Fifty Four Only);4) Details Of Security:ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY PART OF PLOT NO.54/1 TOTAL ADMEASURING 167.22 SQ. YDS, RAJENDER NAGAR INDUSTRIAL AREA, SAHIBABAD LONI, GHAZIABAD-201001, UTTAR PRADESH. PROPERTY BOUNDARIES: NORTH Remaining portion of subject plot, WEST: Plot no. 52 and 53, SOUTH: 40 feet road, EAST: Remaining portion of subject plot: 5) Demand Notice: 31.03.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 2,568,497.04 (Rupees Twenty Five Lakhs Sixty Eight Thousand Four Hundred Ninety Seven and Paise Four Only) as of 31-Mar-21 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc..7) DATE OF POSSESSION: 24/08/2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: BABAL INDUSTRIES, B-79 FIRST FLOOR PHASE-2 MAYAPURI, DELHI-110064 Also At Also is at :S-51, TERRACE OF GROUND FLOOR RAJOURI GARDEN DELHI-110027. TARSEM SINGH VIRDI, SEWA SINGH VIRDI And AMANDEEP KAUR VIRDI Ali At S-51 S/F RAJOURI GARDEN JANTA MARKET, DELHI-110027; Loan Account No. 4196735; Loan Amount: Rs.2500000/- (Rupees Twenty Five Lakhs Only) 4) Details Of Security: ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY - HOUSE NO.S-51, TERRACE OF GROUND FLOOR (BARSATI FLOOR), RAJOURI GARDEN, DELHI-110027 PROPERTY AREA 200 SQ, YDS PROPERTY BOUNDARIES: NORTH: House No. 52. SOUTH House No. 50 EAST: Road WEST: Service Lane: 5) Demand Notice: 31.03.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 1.821.172.50 (Rupees Eighteen Lakhs Twenty One Thousand One Hundred Seventy Two and Paise Fifty Only) as of 31-Mar-21 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.. 7) DATE OF POSSESSION:

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: SHUKLA HOSIERY, PRADEEP KUMAR, KRISHAN GOPAL SHUKLA and GEETA G All At : HNO-L-2/26 SHASTRI NAGAR NEAR NAAG MANDIR DELHI-110052, ; Loan Account No. 3714974; Loan Amount: Rs.4057828/- (Rupees Forty Lakhs Fifty Seven Thousand Eight Hundred Twenty Eight Only); 4) Details Of Security: All piece and parcel of property No. L2/26, Shastri Nagar, Near Hosiery Market, Delhi - 110052 Property Area 1570 Sq Feet. Property .& Bounded : East : Passage 20 Ft Wide, West : OTHER PORTION OF PLOT NO. 26 SOLD TO BAIJ NATH, North : Part Of plot South: Plot No 27: 5) Demand Notice: 03.06.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 31,49,584,29/- (Rupees Thirty One Lakhs Forty Nine Thousand Five Hundred Eighty Four and Paise Twenty Nine Only) as of 03-June-2021 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.7) DATE OF POSSESSION: 26/08/2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: JASWANT SINGH, AMARJEET KAUR, INDERPAL SINGH ARORA And AMARJEET KAUR Ali At : H NO- 226 FIRST FLOOR RAM NAGAR KRISHNA NAGAR DELHI DELHI-110051 Also At : PROPERTY NO- 226 UGF, RAM NAGAR KRISHNA NAGAR DELHI DELHI-110051; Loan Account No. 1503255; Loan Amount: Rs.7031843/- (Rupees Seventy Lakhs Thirty One Thousand Eight Hundred Forty Three Only); 4) Details Of Security: All piece and parcel of property No 226, Upper Ground Floor, Ram Nagar, Krishna Nagar, Shahdra Delhi -110051, Property Area 1575 Sq Feet. Property Boundaries North: Plot No 224, South: Road, East: Plot 228, West: Part of Plot: 5) Demand Notice: 04.06.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 56,23,214.11 (Rupees Fifty Six Lakhs Twenty Three Thousand Two Hundred Fourteen and Paise Eleven Only) as of 04-June-2021 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.7) DATE OF POSSESSION: 25/08/2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: AARNA ENTERPRISES At : 9/2702/1 GALI NO-17 KAILASH NAGAR DELHI-110031, VISHNU BAJPAYEE, MALA M And PUSHPA DEVI AlI At : 2675 GALI NO-17 KAILASH NAGAR DELHI-110031.; Loan Account No. 3652336: Loan Amount: Rs.2500000/- (Rupees Twenty Five Lakhs Only): 4) Details Of Security: All piece and parcel of property House No- 9/2702/1, Old No: H-33, Ground Floor, Street No 17, KH-127, Village Seelampur, Kailash Nagar, Gandhi Nagar, Delhi 110031, Property Area 540 Sq Feet.; 5) Demand Notice: 04.06.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 19,93,655.45/- (Rupees Nineteen Lakhs Ninety Three Thousand Six Hundred Fifty Five and Paise Forty Five Only) as of 04-June-2021 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc. 7) DATE OF POSSESSION: 25/08/2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: RAMAN KUMAR, SUMAN MEHRA, GEETIKA MEHRA and MONICA MEHRA All At C 5/166 GROUND FLOOR KESHAV PURAM LAWRENCE ROAD DELHI-110035; Loan Account No. 1941336; Loan Amount: Rs.3400868/- (Rupees Thirty Four Lakhs Eight Hundred Sixty Eight Only): 4) Details Of Security: All piece and parcel of property LIG Flat No C5/166, On Ground Floor, Keshav Puram, Lawrence Road Delhi 110053 Sale Deed Dated 04.02.2011 In favour Of Smt Suman Mehra Property Area 40 Sq Mtr Property Boundaries North : C5/165, South : C-5/167, West : Stair, East : Road; 5) Demand Notice: 04.06.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 37,47,156.87/- (Rupees Thirty Seven Lakhs Forty Seven Thousand One Hundred Fifty Six and Paise Eighty Seven Only) as of 04-June-2021 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.7) DATE OF POSSESSION: 26/08/2021

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: HR TRADING CO At GROUND FLOOR 10703/38 JHANDEWLAN ROAD NEW DELHI DELHI-110055. Also is at :PROPERTY NO- 10703/38 NABI KARIM JHANDEWLAN ROAD PAHAR GANJ NEW DELHI DELHI-110055, ANITA GULATI, KARUN GULATI, RAMESH GULATI Ali At: H.NO- 23 3RD FLOOR BLOCK - E KIRTI NAGAR RAMESH NAGAR DELHI-110015; Loan Account No. 6455384; Loan Amount: Rs.3327683/- (Rupees Thirty Three Lakhs Twenty Seven Thousand Six Hundred Eighty Three Only): 4) Details Of Security: All piece and parcel of property House No 10703/38, Nabi Karim, Qila Kadam Sarif, Jhandewalan Road, Pahar Ganj, New Delhi 110055, Property Area 269.96 Sq Feet. Property Boundeirs: North: Other Property, South: Other property, West: Gali, East: Qila Kadam Sarif. 5) Demand Notice: 04.05.2021; 6) Amount Claimed: Rs. 33,77,761.97/- (Rupees Thirty Three Lakhs Seventy Seven Thousand Seven Hundred Sixty One and Paise Ninety Seven Only) as of 04-May-2021 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc. 7) DATE OF POSSESSION: 26/08/2021

THE BORROWERS' ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB-SECTION (8) OF SECTION 13 OF THE ACT. IN RESPECT OF TIME AVAILABLE TO REDEEM THE SECURED ASSET.

AUTHORISED OFFICER

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. Ashish Kumar (9999260180, Arun Yadav 9350538386) / MR. VIKAS ANAND (9711010384) SD/- FOR HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

New Delhi

For and Behalf of DMI Housing Finance Pvt. Ltd., Authorized Officer

RELIANCE HOME FINANCE LIMITED

Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020. Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to

office at the address mentioned below: F-8. Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020

the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

O HDB

Registered Office: Radhika, 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahemdabad, Gujrat, Pin Code: 380009 Branch Office: Hdb Financial Services Limited, 19, Panchkujan Nagar, Bharat Nagar, Pahargani, New Delhi-110001 For FCS Software Solutions Limited

Aditya Polymers & Chemicals (India) Pvt Ltd. (in Liquidation) PROPERTY WILL BE SUBJECT TO THE CHARGE OF HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED FOR THE AMOUNT SPECIFIED HEREIN WITH FUTURE INTEREST, COSTS AND CHARGES FROM THE RESPECTIVE DATE, DETAILS OF BORROWER/ CO-Commercial Property at HSIIDC Sector 5, IMT Manesar, Gurugram

(Harsha Sharma

Company Secretary

Plot No. 33 & 34 - Land Area - 8100 sq. mtrs.* Constructed area (Basement + Gr + 2 Floors) - 7473.80 sq. mtrs.* [Reserve Price : Rs 28 crores] All EOIs / bids are subject to Process Memorandum dated 29 August 2021. For details, visit http://kscadvisory.in/aditya-polymers.html. Last date for submission of EOI and EMD is 3 September 2021

LIQUIDATION SALE

FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED

(CIN No. L72100DL1993PLC179154)

Registered Office: 205, 2" Floor, Agrawal Chamber IV, 27,

Veer Sawarker Block, Vikas Marg, Shakerpur, Delhi- 110092.

NOTICE

Requirements) Regulations, 2015, it is hereby notified that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 3rd September,

2021 at the Corporate Office of the Company at FCS House, Plot No. 83, NSEZ,

alia, to fix, date, time and venue for 28" Annual General Meeting

No walk-in enquires or phone calls shall be entertained *All areas are reported based on records available and are unmeasured

All communications to be addressed to krishna@sphereadvisory.com

Krishna Chamadia, Liquidator Aditya Polymers & Chemicals (India) Pvt Ltd. (in Liquidation) (IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00694/2017-2018/11220)

Email: krishna@sphereadvisory.com Date: 29 August 2021

Possession Notice (For Immovable Property)

Issued under Rule 8(1)] of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of

West: Plot No: F-23 North: Plot No: F-17 and F-18 South: 12.00 meter wide road

दूरभाषः +91 (129) ४२८८८८८ फैक्सः +91 (129) ४२८८८२२३ वेबसाइटः www.bharatgears.com ई—मेलः info@bglindia.com सीआईएनः L29130HR1971PLC034365

शुद्धिपत्र

वार्षिक आम बैठक और ई—वोटिंग की जानकारी के लिए 28 अगस्त, 2021 को प्रकाशित सूचना में 49वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के पूरा होने की तिथि 27 अगस्त, 2021 के स्थान पर 28 अगस्त, 2021 पढी जाए। कते भारत गीयर्स लिमिटेड

स्थान : फरीदाबाद प्रशान्त खत्री तिथी: 28.08.2021 प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव



KALYAN JEWELLERS INDIA LIMITED

DISPATCH OF NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the 13th Annual general meeting (AGM) of the company will be held on Thursday, September 23,2021, at 10.30 a.m., through videoconferencing (VC)/ Other Audio visual means (OAVM) in compliance with circular issued by ministry of corporate affairs Viz., Circular Nos.14/2020 dated April 8,2020,17/2020 dated April 13,2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 and 2/2021dated January 13,2021 and Securities and exchange board of India (SEBI) Vide its circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 dated January 15,2021. to transact the ordinary and special business, set out the notice dated August 10, 2021 The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the company at TC-32/204/2, Sitaram Mill Road, Punkunnam, Thrissur, Kerala – 680 002.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual report for the financial year 2020-2021 have already been mailed all shareholders whose email addresses are registered / available with the company. The dispatch of AGM Notice and Annual report has been completed on August 27, 2021

In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (the Rules) as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 (The listing Regulations), the company is providing its members the facility to cast their votes, in the business items proposed in the notice of AGM, electronically from a place other than venue of AGM (remote e-voting). The company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility.

The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 20, 2021 at 9.00 a.m.(IST) and ends on Wednesday, September 22, 2021 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting facility shall not be available beyond the said time and the module shall be displayed by the NSDL for voting thereafter. Once the vote on resolutions cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast

The facility for voting through electronic voting system shall also be made available on the day of the AGM and the members participating in the AGM through VC/OAVM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during the meeting.

A person, whose name appears in the register of member's / Beneficial owners as on the cut-off date, i.e., Thursday, September 16, 2021, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the meeting.

Any person who becomes member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date may obtain user ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or cs@kalyanjewellers.net. The detailed procedure for obtaining user ID and password is provided in the AGM Notice. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting your vote. The company has appointed Mr. MR Thiagarajan, Practicing Company secretary, Coimbatore, to act as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting during the AGM in a fair and transparent manner.

Members may note that the notice of 13 th AGM and the Annual report for FY 2020-2021 are also available on the company's Website www.kalyanjewellers.net in the website of NSDL viz., www.evoting.nsdl.com as well as on the websites of the stock exchanges, namely, NSE, BSE and the documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be made available for inspection by writing to the company at cs@kalyanjewellers.net.

In case of any grievance or query connected with remote e-voting /voting during the AGM, Members may refer the frequently asked questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no : 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr.Amit vishal, Asst.vice President -NSDL at evoting@nsdl.co.in or at company's email ID: cs@kalyanjewellers.net.

Place: Thrissur Date: August 29, 2021 For Kalyan Jewellers India Limited Jishnu RG Company Secretary

CIN-U36911KL2009PLC024641 Registered Office -TC-32/204/2, Sitaram Mill Road, Punkunnam Thrissur, Kerala - 680 002 Web: www.kalyanjewellers.net | Email: cs@kalyanjewellers.net

Kalyan Jewellers India Limited

बाम्पसल सिक्युरिटीज लिमिटेड



पंजी. कार्या.: 100ए- साईकल मार्केट, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055, फोन नं. 9810017327 ईमेलः bampslsecurites@yahoo.co.in

www.bampslsecurites.co.in, CIN No.: L65100DL1995PLC065028

सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 26वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 10.00 बजे पुर्वा. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमें ('ओएवीएम') सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट साधारण तथ विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

26वीं एीजएम की सचना तथा रिमोट ई-वोटिंग के लिये निर्देशों तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी पत्राचार के उद्देश्य से कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं।

यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हों तो कृपया एफवाई 2020-21 का वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिये लागिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिये नीचे दिये गये निर्देशों का अनुसरण करें:

भौतिक धारिताः फोलिओ नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन्ड प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए ईमेल पते के पंजीकरण के लिये rta@alankit.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्रस, अलंकित एसाइन्मेन्टर

लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें। डिमैट धारिताः कृपय अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की परामर्श से

प्रक्रिया के अनसार अपना ईमेल पता पंजीकत कराऐं। कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित तथा सेबी (सुचीयन दायित्व एवं

उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये उसके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से नेशनल सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा सभी व्यवसायों को निष्पादित कराने के लिये ई-वोटिंग सविधा प्रदान की है। एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सविधा उपलब्ध कराई जायेर्ग तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे भी एजीएम मिं उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना के साथ भेजी गई पत्र में शामिल है।

ई-वोटिंग से संबंधित काईं भी प्रश्न/समस्या श्री भीष्म कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेश, बीएएमपीएसएल सिक्युरिटीज लिमिटेड, ईमेलः bampslsecurities@yahoo.co.in को संबोधित की जा सकती है कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उक्त नियमावली, यथा संशोधित के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार विवरण इस प्रकार है:

1. एजीएम सुचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

- . इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान शुरु होने की तिथि एवं समयः 26 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. में। 3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान बंद होने की तिथि एवं समयः 28 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. में 4. 28 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं
- 5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 22 सितम्बर, 2021 है।
- 6. यदि कोई व्यक्ति सचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये आप अपने वर्तमान यजर आईडी एवं पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- 7. एजीएम में सदस्यों के लिये ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। 8. जिन सदस्यों ने एजीएम से पर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से अपना मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
- 9. जिन व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितम्बर, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर अथव डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, के वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मत-पत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। 10. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.bampslsecurities.co.in तथा साथ र्ह
- एनएसडीएल की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित है। 11. किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिये आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड मे सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग

यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें। सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 23 सितम्बर, 2021 से 29 सितम्बर, 2027 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

> बोर्ड के आदेश से मै. बामपाल सिक्युरिटीज लिमिटेड

भीष्म कुमार गुप्त



आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

पंजीकत एवं निगमित कार्यालयः 201-202, द्वितीय मंजिल, साउध एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्टीयल एरिया, जयपर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात)** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पनर्गठन और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 '' की धारा 13(12) और सहपठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अत: ऋणीयों तथा आम जनता को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है । ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतट् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है । इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाईनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड " के नाम से ज्ञात)** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
आतिश केशहरवानी, प्रियंका केशहरवानी, तुलसी दास स्राता सं. LNPYJ00719-200123615	09 अप्रैल 21 र 2861406/- बकाया दिनांक 9 अप्रैल 21 तक	मकान नं. 94/114, मौजा-भोला का पुरा, परगाना व तह. सदर, जनपद प्रयागराज, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल : 223.99 वर्ग मीटर	सांकेतिक कब्जा दिनांक 26 अगस्त 21
स्थान : जयपर दिनार	F 29-08-2021	पाधिकत अधिकारी आवास फाइने	सियम् लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank

शाखाः होज काजी परिशिष्ट-IV [नियम-8 (1)]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकार

के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 15.6.2021 जारी कर ऋणधारक शशांक भाटिया/मै. श्रीनाथ एण्टरप्राईजेज को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 70.17 लाख/- (शब्दों में सत्तर लाख सत्तरह हजार मात्र) तथा पुनर्भुगतान की तिथि तक 15.6.2021 से उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 27 अगस्त, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे के ब्याज, लागत चार्जेज तथा उस पर खर्चे के साथ 27.8.2021 को रु. 72.30 लाख की राशि के लिये इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण ग्राम चौखंडी तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एक्स्टेंशन, तिलक नगर, दिल्ली-110018 के नाम से स्वीकृत कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति सं.-19बी,

चौहद्दीः उत्तरः नं. 46/2डी, दक्षिणः नं. 46/2 बी, पूर्वः रोड, पश्चिमः बैक गली

तिथि: 27.8.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक



Registered Office: UNIT NO. 515, DLF TOWER A, JASOLA DISTRICT CENTER. NEW DELHI-110025 CIN: L29222DL1979PLC009668, Website.: www.stlfasteners.com Ph.: 0129-2270621-25, Email Id.: csec@stlfasteners.com

NOTICE OF THE 42nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND **BOOK CLOSURE**

Annual General Meeting

डब्ल्यू जेड-46/2 सी (सम्पूर्ण मकान)

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 21st September, 2021 at 10.00 A.M. Indian Standard Time (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs i.e. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circulars No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021(collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by SEBI dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ("SEBI Circular") to transact the Businesses as set out in the AGM Notice dated 11th August, 2021 which forms part of the Annual Report for the Financial Year 2020-21 sent through e-mail only to Members in the electronic mode whose e-mail addresses are registered with the Company /RTA or Depository Participant and the same has been completed on 28th August, 2021. The Annual Report and AGM Notice are available on the Company's website at www.stlfasteners.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Instruction for Remote E-Voting and E-voting during AGM

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide "remote e-voting" facility to the Members before the AGM and e-voting facility during the AGM, who will be holding shares in physical or dematerialised form as on 14th September, 2021 (cut-off date). They may cast their votes electronically through e-voting services provided by NSDL. The instructions for remote e-voting including e-voting during the AGM have been provided in the notice of the AGM.

Members may access the NSDL e-voting system at the weblink: https://www.evoting.nsdl. com under shareholders/members login. The same link is valid for joining/attending the AGM through VC/OAVM on the meeting day.

The instructions and manner for casting of vote through remote e-voting including e-voting during the AGM for those members who are holding shares in physical form or who have not registered email ids with the company are provided in the notice of the AGM. Members are hereby informed that:

- a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the "Cut Off" date i.e. Tuesday, 14th September, 2021, may exercise their right to vote by remote e-voting before the AGM or e-voting during the AGM through VC/OAVM on any or all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company by electronic voting.
- The remote e-voting will commence on Friday, September 17, 2021 at 9.00 AM.
- The remote e-voting will end on Monday, September 20, 2021 at 5.00 P.M.
- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and voting through remote e-voting shall not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have acquired the shares of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM electronically can generate their login and password as per instruction given in the notice under e-voting instructions on page no.3 of the Notice of the AGM The facility of voting through e-voting system shall also be made available during the AGM through VC/ OAVM. Only those members attending the AGM, through VC/OAVM who have not already cast vote through remote e-voting shall be able to exercise their e-voting right during the
- Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but such members shall not be entitled to cast their vote again.
- Members are permitted to join the AGM through VC/OAVM, 30 minutes before the scheduled time of commencement of AGM and 15 minutes after the scheduled time of commencement of AGM through the facility provided by NSDL at https://www.evoting.nsdl.com by using the login credentials and selecting the EVEN for the Company's AGM. Detailed procedure is provided in the notice of AGM.
- In case of any guery or grievance pertaining to remote e-voting before the AGM, e-voting during the AGM and joining the AGM through VC/OAVM, Members may contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013. Email: at evoting@nsdl.co.in, Tel.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Further, Members may also contact with Mr. Deepanshu Rastogi, Asst. Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83
- Any member who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- Process for those shareholders who wish to obtain login credentials for e-voting for the resolutions proposed in this notice but whose email addresses are not registered with the Company/Depositories:
- (i) In case shares are held in physical mode please send signed request letter with Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to info@masserv.com with subject line "user detail required for Sterling Tools Limited Annual General Meeting 2021 mention folio no.".
- (ii)In case shares are held in demat mode, please update your email id with your depository participant and send scan copy of updated client master report to info@masserv.com with subject line "user detail required for Sterling Tools Limited Annual General Meeting 2021 mention dpid-clid". If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
- Members are requested to carefully read the notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

Closure of Register of Members

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 15th September, 2021 to Tuesday, 21st September, 2021 (both days inclusive) for the purposes of ensuing AGM and for determining entitlement to dividend, if any.

The manner and procedure in which the members can give their mandate for receiving of dividends directly in their bank accounts through the National Automated Clearing House (NACH) or any other means are available in the notice of the AGM. By order of the Board,

> for STERLING TOOLS LIMITED **VAISHALI SINGH**

डीएमआई हाउसिंग फाइनेस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 दुरभाष : +91 11 41204444, फैक्स : +91 11 41204000, ई-मेल : dmi@dmihousingfinance.in, U65923DL2011PTC216373

श्री दुर्गेश पाण्डेय पुत्र चन्द्र शेखर, श्री राम पार्क, खोड़ा कॉलोनी, खोड़ा रोड, निकट उज्ज्वल पब्लिक स्कूल, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, भारत साथ ही : प्लॉट नं. 52, खसरा नं. 204-ए, वन रेजीडेंसी थर्ड स्प्रिंगव्यू हाइट्स, ग्राम-रोजा जलालपुर, बिसरख पुलिस चौकी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207, भारत।

2. **श्रीमती रिकी देवी पत्र श्री रामा शंकर त्रिपाठी पत्नी श्री दुर्गेश पाण्डे,** श्री राम पार्क, खोड़ा कॉलोनी, खोड़ा रोड, निकट उज्ज्वल पब्लिक स्कूल, नोएडा

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, भारत। साथ ही : प्लॉट नं. 52, खसरा नं. 204-ए, वन रेजीडेंसी थर्ड स्प्रिंगव्यू हाइट्स, ग्राम-रोजा जलालपुर, बिसरख पुलिस चौकी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207, भारत।

मैडम ∕श्रीमान.

विषय : वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत विधिक सुचना अधोहस्ताक्षरी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी मैसर्स डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (इसके पश्चात ''डीएमआई एचएफसी' सन्दर्भित), कार्यालय का पता : एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 (इसके पश्चात ''डीएमआई एचएफसी'' सन्दर्भित), वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाम एतद्वारा निम्नलिखित 1. कि ''डीएमआई एचएफसी'' कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी है जो गृह ऋण स्वीकृत करने सहित विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रावधानित

करने का व्यवसाय करती है।

2. कि आप सम्बोधितियों ने रु. 6,28,107/- (रुपये छ: लाख अट्टाईस हजार एक सौ सात मात्र) की राशि हेतु ऋण ग्रहण करने के लिए ''डीएमआई एचएफसी'' से सम्पर्क किया था। ऋण की स्वीकृति हेतु आपका निवेदन ऋण अनुबन्ध सं. HFC0001568894/ ऋण आवेदन सं. GG921096 (कथित ऋण अनबन्ध) दिनांक 22 जनवरी. 2019 को उसमें निहित नियम एवं शर्तों पर विचारित किया गया था। आप दोनों ने कर्जदारों के रूप में उसमें निहित नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के टोकन के रूप में कथित ऋण अनुबन्ध दिनांक 22 जनवरी, 2019 पर हस्ताक्षर किया था। बाद में कथित ऋण अनुबन्ध के नियम एव शर्तों की स्वीकृति के बाद आपने एचएफसी द्वारा स्वीकृत कथित ऋण सुविधा के परिप्रेक्ष्य में अन्य दस्तावेज दिये थे। आपने स्वामित्व विलेखों को जमा करके बंधक द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति की प्रतिभृति के विरुद्ध कथित ऋण सुविधा ग्रहण की है : प्लॉट नं. 52, खसरा नं. 204-ए, वन रेजीडेंसी थर्ड स्प्रिंगव्यू हाइट्स, ग्राम-रोजा जलालपुर, बिसरख पुलिस चौकी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्त

(इसके पश्चात ''कथित सम्पत्ति'' तथा/अथवा ''अनुसूचित सम्पत्ति'' सन्दर्भित) जो यहाँ अनुसूची में भी अधिक विस्तृत रूप से वर्णित है। 3. कि आप सम्बोधितियों ने अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त ऋणों की मूल राशि, ब्याज एवं उसके तहत देय अन्य समस्त धन का भुगतान करने की स्वीकृति

सिंहत इस ऋणदाता के साथ सुविधा अनुबन्ध के तहत वर्णित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार किया था।

4. कि इस प्रकार आपने ''डीएमआई एचएफसी'' के पक्ष में अनुसूचित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति हित सृजित किया और अनुसूचित सम्पत्ति ''डीएमआई एचएफसी'' की प्रतिभति आस्ति हो गयी।

5. कि आपके अनुरोध के आधार पर ''डीएमआई एचएफसी'' ने **रु. 4,84,724**/- (रुपये चार लाख चौरासी हजार सात सौ चौबीस मात्र) प्रदान किया। 6. कि आपने कथित ऋण अनुबन्ध तथा आपके द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों में निहित नियम एवं शर्तों के अनुसार समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से कथित ऋण के पुनर्भुगतान हेतु एक अंडरटेकिंग देकर कथित ऋण ग्रहण किया।

7. कि, आपने ने ''डीएफआई एचएफसी'' को आपके द्वारा देय समान मासिक किस्त (ईएमआई) के भुगतान में चूक की है।''डीएफआई एचएफसी'' द्वारा बार-बार निवेदन तथा फॉलो-अप के बावजूद आप अपने द्वारा क्रियान्वित ऋण अनुबन्ध में निर्धारित के अनुसार ईएमआई के भुगतान में असफल रहे और इसर्क अवहेलना की। आप कर्जदार वित्तीय अनुशासन/दायित्वों को बनाये रखने में असफल रहे और आपने यहाँ नीचे वर्णित सुविधाओं के तहत बकाया राशियों के

3. कि आपकी ओर से किये गये उपर्युक्त एवं अन्य चूकों के अनुसार, ऋण अनुबन्ध के अनुच्छेद 7 में परिभाषित के अनुसार चूक की घटनाएँ हैं। ऋण अनुबन्ध सं. HFC0001568894/ ऋण आवेदन सं. GG921096 के प्रावधानों के अनुसार चूक की घटनाओं के कारण आपको दिये गये सम्पूर्ण ऋण का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सह रिकॉल सूचना दिनांक 2 जून, 2021 के माध्यम से ''डीएमआई एचएफसी'' द्वारा आपके ऋण को रिकॉल किया गया था। कथित मांग सह रिकॉल सूचना दिनांक 2 जून, 2021 के तहत आपको वास्तविक भुगतान की तिथि तक आगे के प्रभारों तथा ब्याज सहित 31 मार्च, 2021 तक आरोपित ब्याज, अन्य बकायों तथा प्रभारों सहित कुल बकाया राशि रु. 215,249/- (रुपये दो लाख पन्द्रह हजार दो सौ उनचास मात्र) का पुनर्भुगतान करने को कह गया था। कथित मांग सह रिकॉल सूचना दिनांक 2 जून, 2021 को आपके पास विधिवत सर्व किया गया था। कि आपने मांग सह रिकॉल सूचना दिनांक 2 जून

2021 में उल्लिखित कथित देयों/बकाया दायित्वों का पुनर्भुगतान करने की जानबूझकर अनदेखी की।). कि इसके अलावा, चूंकि ऋण अनुबन्ध के तहत आपके द्वारा देय राशि 90 दिनों से अधिक बकाया हो गयी है अतः आपको ऋण खाते को ''डीएमआई एचएफसी' द्वारा 5 फरवरी, 2021 को ''गैर-निष्पादित आस्ति'' के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

10. कि 30 जुन. 2021 तक ''डीएमआई एचएफसी'' का आपकी ओर बकाया दायित्व देयताएँ **रु. 221,241/- (रुपये दो लाख इक्कीस हजार दो सं इकतालीस मात्र**) हैं जिसमें 30 जून, 2021 तक आरोपित ब्याज, अन्य बकाये तथा प्रभार शामिल हैं। कृपया ध्यान दें कि आप 30 जून, 2021 से सम्पूर्ण बकाया दायित्व के पुनर्भुगतान की तिथि तक प्रतिस्थापित ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों तथा प्रभारों के साथ अनुबन्धात्मक दर पर आगे के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

11. अतः एतद्वारा ''डीएमआई एचएफसी'' आपको इस सूचना की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर ''डीएमआई एचएफसी'' के प्रति यह सूचना जारी करके वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (तथा उसके भावी संशोधनों) की धारा 13(2) के तहत संयक्त रूप से तथा/अथवा अलग-अलग आपको अपने उपर्युक्त दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने के लिए कहता है। 12. कृपया ध्यान दें कि यदि आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर 30 जून, 2021 से पुनर्भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज

प्रतिस्थापित ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों तथा प्रभारों सहित आपके द्वारा देय उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित उपर्युक्त राशि रु. 221,241/- (रुपरे दो लाख इक्कीस हजार दो सौ इकतालीस मात्र) का संयुक्त रूप से तथा/अथवा अलग-अलग ''डीएमआई एचएफसी'' को पुनर्भुगतान करने में असफल रहत् हैं तो ''डीएमआई एचएफसी'' वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहत प्रावधानित समस्त या किसी अधिकार प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा जिसमें आपकी लागत तथा जोखिम पर अनसचित सम्पत्ति पर कब्ज लेना तथा उसकी बिक्री शामिल है। उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपको यह भी सुचित किया जाता है कि यदि प्रतिभृत आस्तियों के परिसमापन की कार्यवाही ''डीएमआई एचएफसी'' के बकायों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो हम उपयुक्त विधिक कार्यवाही करके शेष बकायों की वसूर्ल

13. आपको यह सुचना भी दी जाती है कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के सन्दर्भ में, आप ''डीएमआई एचएफसी'' की पूर्व लिखित अनुमति के बिन अनुसूचित सम्पत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से अन्तरण नहीं करेंगे। सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) में निहित उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपाल न करना सरफैसी अधिनियम की धारा 29 के तहत एवं दण्डनीय अपराध है।

14. यह सुचना बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी की गयी है और किसी अन्य अधिकारों तथा उपचारों के छट के रूप में नहीं मानी जायेगी जिसे आपके द्वारा ''डीएमआई एचएफसी'' को राशि की भावी मांग तथा देय सहित ''डीएमआई एचएफसी'' के पास हो सकती है।

15. इस मामले से सम्बन्धित समस्त पत्राचार अधिकृत प्राधिकारी, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 3सरा तल, 9–10 बहादर शाह जफ मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सम्बोधित किये जाने चाहिए।

अनुसूची (कथित सम्पत्ति का विवरण)

प्लॉट नं. 52, खसरा नं. 204-ए, वन रेजीडेंसी थर्ड स्प्रिंगव्यु हाइट्स, ग्राम-रोजा जलालपुर, बिसरख पुलिस चौकी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्त प्रदेश-203207, भारत। कृते एवं हिते डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि., अधिकृत प्राधिकारी



फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

Light Up The World पंजीकृत कार्यालय : डी-34, डीएसआईडीसी पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 (भारत) फोन : +91-11-25927820, 25927919, फैक्स : +91-11-25927740, ई-मेल : investor@fiemindustries.com

वेबसाइट : www.fiemindustries.com सीआईएन : L36999DL1989PLC034928

32वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई—वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

लद्द्वारा सूचना दी जाती है कि फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम'), मंगलवार, 21 **सितम्बर, 2021 को पूर्वा. 10:30 बजे**, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरक्षित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंजालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02 / 2021 क्रमानुसार दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए सर्कुलर्स") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्व्हलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 12 मई, 2020 और 16 जनवरी, 2021 ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्अल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के

एमसीए सर्वज़र्स तथा सेबी सर्वज़र्स के निबन्धनों में, एजीएम की सुधना तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त विलीय वर्ष हेतु विलीय विवरण शामिल है ('वार्षिक रिपोर्ट'), जन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता आरटीए / हिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास पंजीबद्ध है। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्वालर्स तथा सेबी सर्वालर्स के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की बारा 108 के साथ पंतित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20, भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा इंस्टीटबूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक (एसएस–2) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी, इसके सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने हेत् प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई--वोटिंग की सुविधा, एक वैकल्पिक विधि के रूप में, उपलब्ध करा रही है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. (एलआईआईपीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सुचित किया जाता है कि

क) एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है : ख) रिमोट ई-पोर्टिंग आरंग होने का दिन, तिथि, समय: शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 (1000 बजे आईएसटी)

ग) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि, समय: सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 (1700 बजे आईएसटी) ; चक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा उसके बाद एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग प्लेटफार्म निष्क्रिय

 कट—ऑफ तिथि 14 सितम्बर, 2021 को भीतिक अथवा अभीतिक (डीमैटीरियलाइण्ड) रूप में शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर अपना वोट एलआईआईपीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। एलआईआईपीएल द्वारा उपरांक्त तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट ई—वोटिंग मॉडयुल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य

द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट ढाल दिए जाने के बाद, सदस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। (ii) जो सदस्य रिमोट ई—वॉटिंग द्वारा अपना वॉट एजीएम से पूर्व डाल चके होंगे, वे वीसी / ओएवीएम स्विधा के मध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु एजीएम के दौरान ई--वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

यानी 14 सितम्बर, 2021 को शेयरधारक है, अपना बोट ढालने के लिए एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध ई-बोटिंग अनुदेश देख सकता है अथवा

(iii) एजीएम में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा बोट नहीं डाला होगा, वे एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट छ) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कम्पनी के शेयर अजिंत करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि

enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेज सकता है अथवा फोन : 022-49188000 पर कॉल कर सकता है। अभिती रंजना गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव, को रिमोट ई--वोटिंग द्वारा बोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई--वोटिंग द्वारा मतदान की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

www.nseindia.com पर तथा लिंक इनटाइन इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। एतदद्ववारा आगे सचना दी जाती है कि. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां बुधवार, 15 सितम्बर, 2021 से मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 (दोनों दिन सहित) तक इविवटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि एजीएन में घोषित किया जाता है, प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित करने हेतु बंद रहेंगी।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com पर. बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर. एनएसई की वेबसाइट

जिन शेयरधारकों ने अपना ई–मेल पता एवं मोबाइल कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया है तथा/अथवा लामांश इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए बैंक खाता आदेश अदातन नहीं करवाया है, उनसे

उपरोक्त विवरण तत्काल, निम्नलिखित विधि में पंजीबद्ध / अद्यतन करवाने हेत् पून: अनुरोध किया जाता है । (i) **डीपी के पास विवरण पंजीकरण / अदातनीकरण** : यदि शेयर डीमेट रूप में धारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को दुवतापूर्व सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाला विवरण अपने डीमैट खाले में, डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत / अदातित करवा लें।

आरटीए के पास विवरण पंजीकरण / अधातनीकरण : यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, शेयरधारक को हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया

प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर जाना होगा और फिर कम्पनियों की सुची से **फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** सिलेक्ट करना होगा तथा उसमें मांगा गया विवरण भरना होगा तथा आवश्यक वस्तावेज अपलोड और सबमिट करने होंगे। यदापि, डीमैट रूप में शेयरों के धारक शेयरधारक अपना विवरण आस्टीए के पास पंजीकृत/अदातित करवा सकते हैं, तथापि, ऐसे शेयरधारक के लिए अपना विवरण केवल ढीपी के पास पंजीकृत / अधितित करवाना बेहतर होगा । यदि कन्पनी किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान सदस्य का बैंक खाता अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रोनिक विधि से करने में असमर्थ रहती है. तो कन्पनी

ऐसे सदस्य को लाभाश वारंट / बैंकर्स चैंक / डिमांठ ड्राफ्ट, यथासंभव शीघ, अनुमत्य विधियों से प्रेषित करेगी। वीसी / ओएवीएम के मध्यम से एजीएम के आयोजन, रिमोट ई--वोटिंग, एजीएम के दौरान ई--वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की रिव्यति में

सवस्य उसकी सचना निम्नवर्णित पते पर / कम्पनी के अधिकारी /आरटीए भेज सकते हैं

विवरण	फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता	डी-34, डीएसआईडीसी पैकेजिंग कॉम्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015	सी101, 247 पार्क एलबीएस मार्ग, विखराली, (पश्चिम) मुंबई 400083
नाम और पदनाम	श्री अश्विन्य के, चौहान, कम्पनी संचिव	श्री राजीय रंजन, सहायक उपाध्यक्ष
फोन	+91-130-2367905 से 10 तक	+91-022-49186000
ई-मेल आईडी	investor@fiemindustries.com	enotices@linkintime.co.in

शेयरघारकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेत् प्रोत्साहित किया जाता है, ई—वोटिंग इसको आसान बनाती है।

• शेयरघारकों को शेयरों के घारण, हस्तांतरण की आसानी और अन्य संबद्ध लागों के लिए अपने भौतिक शेयर अमौतिक (ढीमैटीरियलाइज्ड) रूप में

बदलवा लेने की सलाह दी जाती है। शेयस्थारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अदत्त लागांश की मांग, उसको आईईपीएफ को अंतरित किए जाने से पूर्व ही कर लें। लाभांश / शेयर एक बार आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाने के बाद, दावेदार, निर्धारित प्रक्रिया अपना कर तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करके

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

तिथि : 29 अगस्त, 2021 स्थान : राई, हरियाणा

ही उसको आईईपीएफ से मांगने का हकदार है।

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 27 सितम्बर, 2021

प्रबंध निदेशक

Place: Faridabad

Date: 28.08.2021









Eस्ता./-

कम्पनी सचिव

अरविन्द के. चौहान